

## SIR SHADI LAL ENTERPRISES LTD.

SHAMLI - 247 776 (UP), TEL : (01398) 250064, 250082, FAX : 01398 - 250032, E-MAIL : udsm shamlingsify com

## CIN No.L51909DL1933PLC009509 E-mail:udsm\_shamli@sirshadilal.com, Website:www.sirshadilal.com

#### REGISTERED

FEBRUARY 13, 2020

The Department of Corporate Affairs BSE Limited 25th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, <u>Mumbai – 400 001</u>

### SCRIP CODE NO. 532879

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith Clippings of the newspapers viz. The Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) both dated 12.02.2020 in which Advertisement for Dispatch of Postal Ballot Notice was published.

Kindly acknowledge receipt of the same,

Thanking you,

Yours faithfully, for Sir Shadi Lal Enterprises Limited

(Ajay Kumar Jain) Company Secretary

Encl.: As above

## 10 जनसत्ता, 12 फरवरी, 2020



सीए-21 पोर्टल सकता है अधया हे क्षेत्र क्ष.2 विंग, रेपार नई दिल्ली, न की तारील क					The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with a (licitize and after Directory Results and Participation 2015, The full format of the			ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है निविव फर्म डाइनलेड एवं जपलेड करने की तरीख र	
रेगर नई दिल्ली. म की तारील क	ओसवाल लीजि	जंग जिन	25		(Listing and other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the stock exchanges website at a link (bseindia.com/#corporates) and on the Company's we			समय	सोमचार 24 फरवरी, 2020 सायं: 6.00 कर्जे तक।
	पेत्री सार्यालय 105, लगोका झाटेंट, 2			-Titler 1		For Universal Office Auton	mation Limited Sd/-		गईट www.dipronline.org पर एवं मिविदा दरतावेज rajasthan.gov.in एवं sppp.raj.nic.in पर देखा
हे अयता गतीकृत	CIN: L65910D1.1983PLC016	6036, siz (	011 221114	188.	Place : Noida		ar Shrivastava	जा सकता है।	
থা দানি আয়বেশ আির এন মহ নী	फीसमा (011) 28316374, सेमसा ईमेला oswal leasings	and the second sec			Date : 10.02.2020	Man	aging Director	सम्पूर्ण निविंदा प्रक्रिया http://epro जायेगी।	oc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन सम्पादित की
2 1002.410	31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाई	ही तथा नौमाही		मकेशित	REMINDER PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO SECURITIES AND E				हरुता/- (बी.ए.स. औरवा)
র অলমনি এটার ভা	विजीय परिणाम	तें का सार	(0	frie mail in.	CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBE FOR THE IMMEDIATE ATTENTION OF THE PUBLIC SHA		e")	DIPR/C/738/2020	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, या.नि.वि. वृत अजमेव
पिटेड विशक	n faran		tent con	जना केल्डा	GOODWILL HOUSING AND INVEST		TED		1
4019	·	31.12.20 ( untight	ters caniefar		("Goodwill"/ "The Company")			7.2.30	FORM A
1	परिवालने में कुल आप (सुग्र.)	629	4.77	32.93	Registered Office: 1/811 Pillayar Koll Street, Thoraipakkam, Chenna Tel: +91 94440384257 9444005357; Fax: NA; Email. goodwilli	Illhousing@yahoo.co.m;		(Regulation 14 of the Insol	ANNOUNCEMENT Wency and Bankruptcy Board of India
2	. आर्थीय के लिए सुद्ध लाफ (स्टीर) (कर, स्थितिह स अस्याप्रसार करी के प्रदेश	C. 10440 (7.02)	2.99	3.07	Website: http://www.goodwillhousingandinvestmentslimited.com/; Conta Corporate Identification Number: L65922TN1994	tact Person: Mr. Somasundaram	C	(Voluntary Liquidation	ton Process) Regulations, 2017) N OF THE STAKEHOLDERS OF
	असाम्राज्य कडी से पूर्व) . आग से पूर्व अपाधि के लिए सुद्ध साम्रा (सनि) (सि	fine aur	1.97	6.27	THIS REMINDER PUBLIC ANNOUNCEMENT ("RPA") IS BEING ISSUED ON BEHA		D PROMOTER		DIA PRIVATE LIMITED
Ľ	र्ष्य अनना अनाभारम बार्च 🛎 बाद)		( C.S.		GROUP MEMBERS OF GOODWILL HOUSING AND INVESTMENTS LIMITED	"GOODWILL/ THE COMPAN	NY") BY MR.	1 Name of Comorate Person	Feriwal India Private Limited
4	. भार से साथ अपनि के लिए सुद्ध साथ (साथि) (सि अपना असलागत करी के घटन	14.64 010	1.1	1.27	CHITSABESAN KN, MR. SOMASUNDARAM C AND MR. CHITSABESAN UTH		000000000000000000000000000000000000000	2 Data of Incorporation of Corporatir Person 3 Authority under which Corporate Person is	18/01/2007 Ministry of Corporate Attains, Registrar of Companies, Dehi
5	) अन्तरि हेंदू केल कार्यन मन्द्र ( स्वर्धन हेंद्र ( सर के सन	1 mil 0.01	2.04	2.07	REFERRED TO AS THE "OFFERORS"), BEING THE PROMOTERS OF THE COM PUBLIC SHAREHOLDERS (DEFINED TO MEAN ALL THE SHAREHOLDERS		A CARA R PARTY AND A CARA	incorporated / ragistered	
Ľ	(बानि) प्रमं अग्र म्याया आप (जन के बाद) ये रही	H.			PROMOTERS AND PROMOTER GROUP MEMBERS HEREINAFTER REFERRE		and the second second second	4 Corporate Identity Number of Corporate Person	U24305HR2007PTC040646
	अस्म इस्लिट हेवर पुनी (जरम) (प्रानं पुनक का 121-	and the second s	p 30.00	10.00	GOODWILL BY ACQUIRING UPTO 20,20,108 EQUITY SHARES ("OFFER SHARES	ES") HAVING FACE VALUE RS.		5 Address of the Registered Office and	Registered Office: Echelon Institutional Area, Plot No-11, Sector-32, Gurgaon-122031, Harvana
1	. মার্যালা ( দুবর্গুল্যাজন মার্যানর্য কা মার্টায়ের) গাঁরা জ মার্টায়ের ফুলন আ ব বী	14.44			RS. 8.50/- ("EXIT PRICE") IN ACCORDANCE WITH THE SEBI CIRCULAR ("EXIT OFF		AL	Principal Office (If any) of Corporate Person	Principal office: 5th Picor, A- Wing, Ashioka Piaza,
	. आग कवि संघर (ईपीएक) (म. १८१० कवि कार) (ज	the second se	-	1	The dispatch of Offer Letter, along with Form of Acceptance ("Form"), in respect o has been completed on January 30, 2020.	of the said Exit Offer to the Poons	c Shareholders		Pune- Nagar Rixed Survey No. 32/2, Vacquon Sites. Virnan Nagar Pune-411014, Mahareshtra
	এলম্বে প্রখালন্ট ক লিব) (অভিযান্থের জা) । মনন প্রথম (ম. ম)	211 100		100	Activity Schedule for Exit Offer			6 Equidation Commencement Date of	07.02.2020
E	प्याणी: 5, 51 दिसम्पर, 2016 को समाज			0.45 मेरे आज्यारी क्रि	Date of Opening of Exit Offer Period February 10, 20 Date of Closing of Exit Offer Period February 14, 20	21771		Corporate Person 7 Name, address, email address, telephone	Name: Dr. (b.c.) Adv. Marma Binani;
	विषेत्रित विश्वीय परिणामी को अधित कमिती । विषेत्रित विश्वीय परिणामी को अधित कमिती ।				All the Public Shareholders who wish to lender their Offer Shares in the Exit Offer and the Exit Offer Shares in the Exit		v filled in Form.	number and the registration number of the	Address: 24, Ganesh Chandra Avenue, Commerce House,
20	020 की आमोलित उनकी बैसक में निरीमक	मंदल दास अनु	नुमेशित किमे ग		along with the necessary enclosures, to Cameo Corporate Services Limited, Regist				Fourth Roor, Rohm No. 6, Kolkata-700013, West Bengal. Email kt: fpl.iquidaton@igmail.com
	रिणाम जम्मनी के मॉलिशिक संकेलको कम य				February 14, 2020 at the following address: Address: Subramenias Building, No. 1, Club House Road, Chemoni, 6/0002, Tamil J	and the first of the second			Telephone No.: 9831098551
	का कारत विवयण सेवी (मुलीमन तथा का नियमन ३३ के क्षेत्रांत प्रतीक इक्सरोंन के				Address: Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennal-600002, Tamil ) Tel No: +91 44 40020700; Fax: +91 44 28460129;	il Nadu, India			Registration No./ IBBNIPA-002/IP N00086(2017-18/10227) D8.03.2020
m	त्पाची तथा भी पक्षीने के अनंकेलित लिखीय पर	रेपाने के सम्पूर्ण	र्ग विकास झकर	न का साम है।	E-mail: investor@cameoindia.com;			Notice is hereby given that the Ferwal	I India Private Limited has commenced voluntary mmencement date)
3	) दिसम्पर, ३०१७ को समाप्त तिमाही तथा मौम				Contact Person: Ms. Sreepriya.K In case of any queries regarding the Exit Offer, the Shareholders can contact either	the QTA at the abovement inned	advises of the	The Stakeholders of Ferrwal India Private	e Limited are hereby called upon to submit a proof of
133	टीक एक्सचेंग को पेपसाईट (www.lnc www.awmahac.com) फ प्रपाल्य है।		तला कर्णन ।	की गयसहट	Company al:	or the structure on the construction of the	D HUMPER'S OF MEN	The financial creditors shall submit their	the liquidator at the address mentioned against item 7. If proof of claims by electronic means only. All other
	NWW DWUILINIIN LINII W	1.2.1	1.1	1.1.1.0	Registered Office: 1/811 Pillayar Koil Street, Thoraipakkam, Chennal-600097, Tan			stakeholders may submit the proof of claim Submission of faise or misleading proofs of	ms in person, by post or by electronic means.
5		आंसव्यल	लोजिन लिपि		Tel: +919444038425/9444005357/Fax: NA Email: goodwillhousing@yahoo.c Website: http://www.goodwillhousingandinvestmentslimited.com/. Contact Person			Sd/-	or craim shar attract pertaines.
fr	fW 11.2.2020			हम्ता.)- सुर्राव अगेडा	Offerors on behalf of Promoter Group of the C			Dr. (h.c.) Adv. Mamta Binani Liquidator in the matter of Voluntary Liquid	dation of Ferrival India Private Limited I: IBBI/IPA-002/IP-N00086/2017-18/10227
1 70	थानः नई दिल्ली			गुरम् अगध् सह सीएकओ	Sd/- Sd/-	Sd/-		Address registered with IBBI: 2A, Ganesh C	Chandra Avenue, Commerce House, Fourth Fleer.
28					CHITSABESAN KN SOMASUNDARAM C Place: Chennai	CHITSABESANUTH	HAMAN	Room no.6, Kolkata 700013 (West Bengal tipl liquidator@gmail.com (process speci	ofic)
/- ज्ञर्मा प्	न्यू एरा लिजिंग एण्ड ग्जीकृत कार्यालय: 981, अग्रवाल मिलेनियम, टॉवर-I			वेन्टर वजीरपुर,	Date: February 11, 2020			mamfabinani@gmail.com (registered with Date: 11.02.2020	th (1881)
12351	टीवी टॉकर के सामने, पीतमपुरा, नई दिल्ल	ली- 110034, दूरभ	भाष: 011-699993					Place: Kolkata	
Summer li	CIN: L67120DL19 website: www.neweraleasingfinance.com	Construction of the construction of the		@gmail.com	शाखा कार्यालय: बल्लभगढ़, हरिव फोन: 0128-2300991 22	211710	-नीलामी		রাল एन्टरप्राइजेज লিশিटेब 51909DL1933PLC009509
011	31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिम	-	07.1. <b>C</b> e 14.6 0		फोन: 0129-2300991, 22 SyndicateBank ई-मेल: br.8220@syndicate		ही सूचना	पंजी. कार्यालय : 4ए, हंसाला	ब, 15 बाराखम्बा रोड, नई दिस्सी —110001
	[10] M. M. K. Y. M. M. K. M.			S	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(5) एवं 8(6) के प्रा				hadilal.com ਯੋਜ: 011-23316409 www.sirshadilal.com
	यितीय ए <b>कीकृत</b> उ			S	WINNER IS I SUDTHI INVENDED 2002 M DAMP OF A MARKED AND A MARKED	कर्णना के माल मारत लिलार	11/10/11/10/11	र्श्वसम्बद्धाः ।	
		(ক০ ল	लाखों में. ईपीएस		के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002			बाक	इ मतपन्न की सूचना
, क्र सं	विवरण			स को छोड़कर) समाप्त <b>तिमा</b> ही		? के अंतर्गत अचल परिसम्पति	ायों की बिक्री	<b>बाक</b> (कंपनी अधिनियम	<b>इ मतफन्न की सूचना</b> म. 2013 की धारा 110 के अधीन)
स	विवरण	(रू० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019	लाखों में. ईपीएस <b>समाप्त</b> वार्षिक <b>31.03.2019</b>	लमाप्त तिमाही 31.12.2018	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्हारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित 1 गिरवी/चार्ज्ह नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी हा	के अंतर्गत अचल परिसम्पति किया जाता है कि प्रतिभूत बे हारा भौतिक कब्जा किया गया है,	<b>ायों की बिक्री</b> केडीटर के पास , की नीचे वर्णित	बाक (कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सुचीयन दायित्व तथा उदघार	<b>इ मतफन्न की सूचना</b> त. 2013 की धारा 118 के अधीन) 814 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के
स	विवरण	(रू० ल समाप्त तिमाही	लाखों में. ईपीएस <b>समाप्त</b> वार्षिक <b>31.03.2019</b>	लमाप्त तिमाही 31.12.2018	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्हारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्र गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी हान ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ई–नील	के अंतर्गत अचल परिसम्पति किया जाता है कि प्रतिभूत बे दारा भौतिक कब्जा किया गया है, ोलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup>	<b>ायों की बिक्री</b> केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है,	कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घार साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013("अधिनि	<b>क मतपन्न की सूचना</b> म. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम'') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदडास
भ <b>स</b> ने श्र	विवरण ० संचालन से कुल आय	(रू० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित)	लाखों में. ईपीएस समाप्त वार्षिक <b>31.03.2019</b> ( <b>अंकेसित)</b> (3 18.03	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>क्षित)</b> 3.14	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्र गिरवी/चार्ज्द नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वार ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये इं-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मृ	के अंतर्गत अचल परिसम्पति किया जाता है कि प्रतिभूत बे हारा भौतिक कब्जा किया गया है, ोलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++-</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान	<b>ायों की खिक्री</b> केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, I नीचे वर्णित हैः	कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्यात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस	<b>5 मतफन्न की सूचना</b> त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 314 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम") की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्वास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औरीडी जारी करने
श्व म म 2	विवरण ० संचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(झनि) (कर.	(रू० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019	लाखों में. ईपीएस समाप्त वार्षिक 31.03.2019 (आंकेसित) (3	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>क्षित</b> )	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्हारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्र गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी हान ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ईं-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू ऋणधारक तथा गारन्टरों का जान एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्प	के अंतर्गत अचल परिसम्पति किया जाता है कि प्रतिभूत बे प्रारा भौतिक कब्जा किया गया है, ोलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>115</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्यति का आरश्चित मुल्य इंग्म्मडी	<b>ायों की बिक्री</b> केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ो जम्मा करने के	कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्यात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस	<b>६ मतफन्न की सूचना</b> त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम") की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदहास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के
<b>ti</b>	विवरण ० संचालन से कुल आय	(रू० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित)	लाखों में. ईपीएस समाप्त वार्षिक <b>31.03.2019</b> ( <b>अंकेसित)</b> (3 18.03	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>क्षित)</b> 3.14	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्रे गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वान क्रूणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ई–नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्प पता, तिथि के साथ बकाया राशि विकरण तथा स्वामी/भार्टगैजर का नाम अरोहर	के अंतर्गत अचल परिसम्पति किया जाता है कि प्रतिभूत बे हारा भौतिक कब्जा किया गया है, ोलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>44</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरश्चित मूल्य इंएमडी र राजि भुगतान (ईएमडी) लिवे	<b>ायों की खिक्री</b> केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, I नीचे वर्णित हैः	(कंपनी अधिनियम (कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्य तथा उद्धार साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिगं	<b>क मतफन्न की सूचना</b> त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम") की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद द्वास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को और्सीडी जारी करने रेट /इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने ां तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय
<b>स</b> 1 2	विवरण ० संचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(झनि) (कर.	(रू० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित)	लाखों में. ईपीएस समाप्त वार्षिक <b>31.03.2019</b> ( <b>अंकेसित)</b> (3 18.03	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>क्षित)</b> 3.14	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्रे गिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वान ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्प प्रता, तिथि के साथ बकाया राशि विकरण तथा स्वामी/मार्टगैजर का नाम क्रेसेहर निर्माध के साथ बकाया राशि विकरण तथा स्वामी/मार्टगैजर का नाम क्रेसेहर निर्मीय के साथ बकाया राशि विकरण तथा स्वामी/मार्टगैजर का नाम क्रेसेहर निर्मीय के साथ बकाया राशि	के अंतर्गत अचल परिसम्पति किया जाता है कि प्रतिभूत बे दारा भौतिक कब्जा किया गया है, ोलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++-</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरक्षित मूल्य इंएमडी हर राग्नि भुगतान (ईएमडी) लिबे श्रण की तिथि एवं रम्मय आई	ायों की खिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, ा नीचे वर्णित है: ते जमा करने के खाता न तथा	(कंपनी अधिनियम (कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्य तथा उद्धार साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिगं	<b>5 मतफन्न की सूचना</b> त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अप्रेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम") की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदडास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औसीडी जारी करने हेट / इलेक्ट्रानिक वोटिंग (ई) वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने
<b>सं</b> 1 2	विवरण ९ संचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(झनि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(रू० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक 31.03.2019 (आंकेक्षित) (3 18.03 1.19	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>शित)</b> 3.14 0.69	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्र गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी दान ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ईं-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मृ ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं मिस्वी रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्प मता, तिथि के साथ बकाया राशि ऋणधारकः में. सन माइक्रो प्रा.लि. श्री कबीर भट्ट, पुत्र श्री ए.एस.भट्ट के ख्वामित्व निदेशकः श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र ए.एस. में 'ग्रीन फिल्ड्स' के नाम से विदित आवासीय	के अंतर्गत अचल परिसम्पति किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे हारा भौतिक कब्जा किया गया है, ोलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्यति का आरस्थ्रित मूल्य ईएमडी र राशि भुगतान (ईएमडी) लिवे श्रण की तिथि एवं रम्मय आई रु. 89,00,000/- रु. 8,90,000/- 8220	र्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः वी जम्मा करने के खाता नं तथा ईएफएस कोड खाता नं. 203020000017	(कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्य तथा उद्धात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तर की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) व	मतफप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम") की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद ढास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्ररत्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जारी करने तेट /इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों मे
<b>सं</b> 1 2	विवरण लंचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(झनि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(झनि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/	(रू० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक 31.03.2019 (आंकेक्षित) (3 18.03 1.19	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>शित)</b> 3.14 0.69	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्रे गिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वान ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्प प्रता, तिथि के साथ बकाया राशि विकरण तथा स्वामी/मार्टगैजर का नाम क्रेसेहर निर्माध के साथ बकाया राशि विकरण तथा स्वामी/मार्टगैजर का नाम क्रेसेहर निर्मीय के साथ बकाया राशि विकरण तथा स्वामी/मार्टगैजर का नाम क्रेसेहर निर्मीय के साथ बकाया राशि	के अंतर्गत अचल परिसम्पति किया जाता है कि प्रतिभूत बे हारा भौतिक कब्जा किया गया है, रेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरश्चित मूल्य इ. राग्नि भुगतान (ईएमडी) लिवे श्वण की तिथि एवं रम्मय इ. ड्र्अ,00,000/- इ. ड्र,90,000/- इ. ६,90,000/- ह. ६,90,000/- ह. ह.,90,000/- ह. ह. ह.,90,000/- ह. ह. ह.,90,000/- ह. ह. ह	त्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित है: खाता के तथा ईएफएस कोड खाता के. 203020000017 इट बैंक बल्लभगढ़	(कंपनी अधिनियम (कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उद्धात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तर की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्नों तथा स्व पता लिखित क	<b>क मतफन्न की सूचना</b> त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अप्रेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम") की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्वारा खूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्ररत्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औसीडी जारी करने तेट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने ां तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय ा (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347)
र्ष र 1 1 2 न न न 3 5 5 1 4 4	विवरण वेवरण लंचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(रू० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (अंकेक्षित) (3 18.03 1.19 1.19 1.19	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>धित)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्र गिरवी/चार्ज्ह नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी दान ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ईं-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मृ ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं पता, तिथि के साथ बकाया राशि क्रिणधारक: में. लम माइक्रो प्रा.लि. श्री कबीर भट्ट, पुत्र श्री ए.एस.भट्ट के खामित्व निदेशक: श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र ए.एस. में 'ग्रीन फिल्ड्स' के नाम से विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती क्वीर भट्ट, पुत्र ए.एस. में 'ग्रीन फिल्ड्स' के नाम से विदित आवासीय मह, श्रीमती क्वीर भट्ट, पत्र कबीर भट्ट, कॉलोनी जे याम सराय ख्वाजा, तहसील एवं पता: 718/722, बी-89, नेहरू प्लेस, नई जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पदा में स्थित है, 11 बज दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकान: प्लॉट नं. 2678, पुरान	के अंतर्गत अचल परिसम्पति किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इस भौतिक कब्जा किया गया है, रेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्यति का आरस्थित मूल्य इंएमडी र राग्नि भुगतान (ईएमडी) लिवे श्रण की तिथि एवं रम्मय आई क. 89,00,000/- क. 8,90,000/- 8220 11.3.2020 सिंडिके बजे पूर्वा, से 4,00 बजे अप. शाखा	र्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः वी जम्मा करने के खाता नं तथा ईएफएस कोड खाता नं. 203020000017	(कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घार साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तर की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ	मतफप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अप्रेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम") की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्वारा खूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औसीडी जारी करने तेट /इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) व्वारा पारित किये जाने तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट सूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों /ई वोटिंग व्वारा) बुधवार था गुरूवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंद
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	विवरण लंचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(झनि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(झनि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (झनि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्याप्रक आय (अवधि	(रू० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29)	लाखों में. ईपीएस समाप्त वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आंकेसित) (3 18.03 1.19 1.19	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>क्षित)</b> 3.14 0.69 0.69	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 एतद्हारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्र गिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वान ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ईं-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मृ ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं प्रता, तिथि के साथ बकाया राशि क्रिणधारक: मै. रान माइको प्रा.लि. श्री कबीर भट्ट, पुत्र श्री ए.एस. भट्ट के खामित्व निदेशक: श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र ए.स. में 'ग्रीन फिल्ड्स' के नाम से विदित आवासीय भट्ठ, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र ए.स. में 'ग्रीन फिल्ड्स' के नाम से विदित आवासीय भट्ठ, श्रीमती ज्योति भट्ट, पत्नी कबीर भट्ट, कॉलोनी जे ग्राम सराय ख्वाजा, तहसील एवं पता: 718/722, बी-छ, नेहरू प्लेस, नई जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पदा में रियत है, 11 बर दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकान: प्लॉट नं. 2678, पुरान (रुपये चार करोड़ चालिस लाख छत्तीस प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए, एरिया माप 444	के अंतर्गत अचल परिसम्पति किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इस भौतिक कब्जा किया गया है, रेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्यति का आरस्थित मूल्य इंएमडी र राग्नि भुगतान (ईएमडी) लिवे श्रण की तिथि एवं रम्मय आई क. 89,00,000/- क. 8,90,000/- 8220 11.3.2020 सिंडिके बजे पूर्वा, से 4,00 बजे अप. शाखा	त्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः खाता न तथा ईएफएस कोड खाता न. 203020000017 52 बैंक बल्लभगढ़ आईएफएस कोडः	(कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्धात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यस्त कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्नों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलैट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते	मतफप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 814 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम") की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्वास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्ररत्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औरीडी जारी करने रेट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने ते तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को रचीकृत पद्धतियों मे व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट पूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों /ई वोटिंग ढात्त) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हों. वे डुप्लिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने हो हैं। घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करते है
r 1 r 2 r 2 r 3 r 3 r 4 r 4 r 5 r 5	विवरण विवरण लंचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से एवं) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(डानि) एवं अन्य यापक आय	(रू० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आकेक्षित) (3 18.03 1.19 1.19 1.19	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>वित्त)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतट्द्रारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्र गिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत के डीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वार ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत के डीटर के बकाये की वसूली के लिये ईं-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित म् इण्णधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं मिस्वी रखी गई अचल सम्पत्ति का मता, तिथि के साथ बकाया राशि मता, तिथि के साथ बकाया राशि मता, तिथि के साथ बकाया राशि मता, तिथि के साथ बकाया राशि मती कबीर भट्ट, पुत्र प्र.एस. में भीन फिल्ड्स' के नाम से विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र ए.एस. में भीन फिल्ड्स' के नाम से विदित आवासीय मह, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र ए.एस. में भीन फिल्ड्स' के नाम से विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र ए.एस. में भीन फिल्ड्स' के नाम से विदित आवासीय मह, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र ए.एस. में भीन फिल्ड्स' के नाम से विदित आवासीय मह, श्रीमती कवीर भट्ट, पुत्र ए.एस. मई जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पद्य में स्थित है, 11 बर्च दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकानः प्लॉट नं. 2678, पुरान (रुपये चार करोड़ चालिस लाख छत्तीस प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए. एरिया माप 444 इजार एक सौ इन्यासी तथा पैसे चौतीस वर्ग याईस (प्रथम तल), खरा नं. 61/4 एवं मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक आगे का 5, एरियाः 444 वर्ग याईस	के अंतर्गत अचल परिसम्पति किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इस भौतिक कब्जा किया गया है, रेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्यति का आरस्थित मूल्य इंएमडी र राग्नि भुगतान (ईएमडी) लिवे श्रण की तिथि एवं रम्मय आई क. 89,00,000/- क. 8,90,000/- 8220 11.3.2020 सिंडिके बजे पूर्वा, से 4,00 बजे अप. शाखा	त्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः खाता न तथा ईएफएस कोड खाता न. 203020000017 52 बैंक बल्लभगढ़ आईएफएस कोडः	(कंपनी अधिनियम (कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उद्घात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तर की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित ब प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलैट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ	मतफप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्वास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औसीडी जारी करने तेट /इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट प्रुचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों /ई वोटिंगं व्वारा) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हों, वे डुप्लिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने
भ <b>स</b> भ म म म म दन फ फ स अ व म दि म म दि म म दि म म दि म म म दि म म म म	विवरण वेवरण संचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य	(रू० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (अंकेक्षित) (3 18.03 1.19 1.19 1.19	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>धित)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69	<ul> <li>के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्रे गिरवी/चार्ज्ह नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वार ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ईं-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू आधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गईं उपचल सम्पत्ति का नायेगी। आरक्षित मू आधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गईं उपचल सम्पत्ति का नायेगी। आरक्षित मू आधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गईं उपचल सम्पत्ति का नायेगी। आरक्षित मू आधारकः से. साथ बकाखा राशि</li> <li>ऋणधारकः में. साम माइक्रो प्रा.लि. श्री कबीर भट्ट, पुत्र श्री एएस.भट्ट के खामित्व निदेशकः श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र ए.स. में 'ग्रीन फिल्ड्स' के नाम से विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती ज्वोति भट्ट, पत्नी कबीर भट्ट, कॉलोनी जे प्राम सराय ख्वाजा, तहसील एवं पताः 718/722, बी-९, नेहरू प्लेस, नईं जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पद्य में स्थित है, 11 बर दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकानः प्लॉट नं. 2678, पुरान (रुपये चार करोड़ चालिस लाख छतीस प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए एरिया माम 444 हजार एक सौ डन्यासी तथा पैसे चौतीस वर्ग याईस (प्रथम तल), खसरा नं. 61/4 एवं मात्र) तथा भुगतान की तिथिं तक आगे का 5, एरिया: 444 वर्ग याई य</li></ul>	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे हारा भौतिक कब्जा किया गया है, रेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्यति का आरस्थ्रित मूल्य इंएमडी र राशि भुगतान (ईएमडी) लिवे श्रण की तिथि एवं रम्मय आई क. 89,00,000/- क. 8,90,000/- 8220 11.3.2020 सिंडिके बजे पूर्वा, से 4.00 बजे अप. शाखा SKI	वों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः वे जमा करने के खाता नं. 203020000017 5ट बैंक बल्लभगढ़ आईएफएस कोडः NB0008220	(कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तर की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलैट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ड वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसर्ट	मतफप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्वास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औरीडी जारी करने तेट /इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) व्वारा पारित किये जाने तथा पोरटल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोरटल बैलैट पूचना का ते अवधि (पोरटल बैलैट प्रपत्रों /ई वोटिंगं व्वारा) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हों. वे डुप्लिकेट पोरटल बैलैट प्रपन्न प्राप्त करने हे हैं। घ) यदि कोई सदस्य पोरटल बैलैट प्रपन्न प्राप्त करते हैं इच्छुक हों, वे पोस्टल बैलैट प्रपत्र मे दी गई यूजर नाम तथा ड) यदि कोई सदस्य ई वोटिंग वारा नतवान करना चाहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। च) विधिवत पूर्ण एव
r $r$ $r$ $r$ $r$ $r$ $r$ $r$ $r$ $r$	विवरण ले संचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(झनि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (झनि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य यापक आय इक्वीटी शेयर पूँजी रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर)	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आकेक्षित) (3 18.03 1.19 1.19 1.19	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>वित्त)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69	<ul> <li>के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 एतद्हारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्रे गिरवी/चार्ज्ह नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी हाज ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ईं-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू छणधारक तथा पारन्टरों का नाम एवं मिस्ती रखी गईं अचल सम्पत्ति का सम्पत्त कि हाये रं-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू छणधारक तथा पारन्टरों का नाम एवं मिस्ती रखी गईं अचल सम्पत्ति का सम्पत्त का सम्पत्त का सम्पत्त के साथ बकाया राशि</li> <li>ऋणधारक तथा पारन्टरों का नाम एवं मिस्ती रखी गईं अचल सम्पत्ति का सम्पत्त का सम्पत्त कि साथ बकाया राशि</li> <li>क्रिश्ण तथा स्वामी/मार्टगंजर का नाम विदित आवासीय मह, श्रीमती कवीर भट्ट, पुत्र प्रे प्रे के लोनेनी जे प्राप्त खवाजा, तहसील एवं पताः 718/722, बी-छ, नेंहरू प्लेस नईं जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पद्य में स्थित है, 11 बरें दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकानः प्लॉट नं. 2678, पुरान (रुपये चार करोड़ चालिस लाख छतीस प्लॉट नं. यू-139, सेकटर-ए एरिया माम 444 इजार एक सौ उन्यासी तथा पैसे चौतीस वर्ग याई्स (प्रथम तल), खरार नं. 61/4 एवं मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक आगे का 5, एरियाः 444 वर्ग यार्ड्य ब्वमित्व</li> </ul>	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत बे हारा भौतिक कब्जा किया गया है, रेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरश्चित मूल्य इंएमडी र रात्रि भुगतान (इंएमडी) लिवे झण की तिथि एवं रम्मय आइं रु. ८९,००,०००/- इ. ८,९०,०००/- इ. ८,९०,०००/- ४२ ठ्रांडके बजे पूर्वा, से 4,०० बजे अप. शाखा ऽ ४४. ठेरा अ,००,०००/- इ. ८९,००,०००/- ४४. ठेरा अ,००,०००/- ४४. ठेरा अ,००,०००/- ४४. ठेरा अ,००,०००/-	त्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः खाता न तथा ईएफएस कोड खाता न. 203020000017 52 बैंक बल्लभगढ़ आईएफएस कोडः	(कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावती 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्धात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है । ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी। तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलैट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ड वे 12 03 2020 5:00 बजे अप (आईएसर्ट हस्ताक्षरित पोस्टल बैलैट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद	मतफप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 814 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम") की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्वारा सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्ररत्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औरीडी जारी करने रेट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) व्वारा पारित किये जाने ते तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को रचीकृत पद्धतियों मे व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट पूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिंग ढात्त) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हों. वे डुप्लिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने हे हैं। घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र में दी गई यूजर नाम तथा ड) यदि कोई सदस्य ई वोटिंग ढात्त नही हों. वे पोस्टल बेलैट प्रयत्र प्राप्त करते है इच्छुक हों. वे पोस्टल बैलैट प्रपत्र मे दी गई यूजर नाम तथा ड) यदि कोई सदस्य ई वोटिंग ढात्त कर पर्वते हो हो हो घ) यदि कोई सदस्य इ वोटिंग ढात्त मतवान करना चाहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। च) विधिवत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रपत्र वैध नही होगा। भौतिक
<b>सं</b> 1 2	विवरण ले विवरण लंचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्याप्रक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(डानि) एवं अन्य यापक आय इक्वीटी ज्ञेयर पूँजी रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जेसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29) (1.29) 	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आकेक्षित) (3 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>वित्त)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69	<ul> <li>के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित में गिरवी/चार्ज्द नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत के हीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वान ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत के हीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू आधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत के हीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू आण्डारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी/चार्ज राया रात्मार को साथ बकाया राशि</li> <li>ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्पत्त का सम्पत्त कि को जायेगी। आरक्षित मू अत्र सिरिय के साथ बकाया राशि</li> <li>किलरण तथा स्वामी/मार्टगैकर का नाम एवं निर्देश रहर तिरीश्व के साथ बकाया राशि</li> <li>किलरण तथा स्वामी/मार्टगैकर का नाम एवं जिलरण तथा स्वामी/मार्टगैकर का नाम विरिक्त अधित पृ ह औमती कबीर भट्ट. पुत्र ए.एस. में 'ग्रीन फिल्ड्स' के नाम से बिदित आवासीय भट्ट, प्रा प्रतार नाक करील एवं पताः 718/722, बी-89, नेहरू प्लेस, नई जिला फरीवाबाद की राजस्व समया में स्वित है, 11 बरें दिल्ली 7.2.2020 को रु 44036179.34 में आवासीय मकानः प्लॉट तं. 2678, पुरान (रुपये चार करोड़ चालिस लाख छत्तीस प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए. एरिया माम 444 इतार एक सौ डन्यासी तथा पैसे चौंतीस वर्ग याई (प्रथम तल), खसरा नं. 61/4 एवं मात्र) तथा भुरातान की तिथि तक आगे का 5, एरियाः 444 वर्ग याई ख ब्याज एवं लागतों</li> <li>ऋणधारकः मै. के बी एण्टरप्राईजेज प्रॉप. श्री कबीर भट्ट, पुत्र श्री ए.एस.भट्ट के स्वामित्व कबीर भट्ट, पुत्र ग्री राख के जाता ह सील प्रा माग्र क्या का का दे स्वान या चई स्व स्वान के तिथि तक आगे का 5, एरियाः 444 वर्ग याई स्व कि ता क्यामत्व कबीर भट्ट, पुत्र प्रा प्र कर्व, न्ह के ल्वामित्व कबीर भट्ट, पुत्र श्री र की का एण्टरप्राईजेज प्रॉप. श्री कबिर साथ क्वा हरी ला का आगे का 5, एरिया क्या या दर्व विदित आवासीय हे मात्र) क्या पर्व का स्वर्य क्या में की का प्रा का का का प्र का का हर ता का वा दित्र आवासीय है मक्र का स, नई कॉलोनी जे प्राम सराय क्वाजा, तहसील एवं क्यामेल का स्वर कर त्या कर कर त</li></ul>	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत बे द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, रेतामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरश्चित मूल्य इ. छ्र,00,000/- रु. ६,90,000/- रु. ६,90,000/- इ. ६,90,000/- हे. छ्र,00,000/- हे. ड्र. छ्र. 00,000/- हे. ड्र. ड्र. छ्र. 00,000/- हे. ड्र. छ्र. 00,000/- हे. ड्र. छ्र. 00,000/- हे. ड्र. ड्र. छ्र. 00,000/- हे. ड्र. ड्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ड्र. ठ्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ड्र. ड्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ड्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ठ्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ड्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ठ्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ठ्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ठ्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. 00,000/- हे. ड्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. ठ्र. ठ	व्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः खाता नं तथा ईएफएस कोड खाता नं. 203020000017 उट बैंक बल्लभगढ़ आईएफएस कोडः NB0008220 	(कंपनी अधिनियम (कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावती 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उद्घात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित ब प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलैट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ड वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसर्ट हस्ताक्षरित पोस्टल बैलैट प्रपन्न या ई वोटिंग हा उक्ष	मतफप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम") की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद द्वारा सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्ररत्तावों, कंपनी के रजीईी आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जारी करने तेट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने ते तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफ के साथ पोस्टल बैलैट सूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों /ई वोटिंग द्वारा) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हों. वे डुप्लिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने हो हैं। घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र में ती गई यूजर नाम तथा ड) यदि कोई सदस्य ई वोटिंग द्वारा मतदान करना चाहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। च) विधिवत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रपन्न वैध नही होगा। मौतिक क्त तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छ)
I     I       1     2       1     2       1     3       1     3       1     3       1     3       1     3       1     6       7     6       1     7       1     8       1     7       1     8       1     7       1     8	विवरण लंचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(डानि) एवं अन्य यापक आय इक्वीटी सेयर पूँजी रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जेसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्ज्ञाया गया)	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29) (1.29) 	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आकेक्षित) (3 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>वित्त)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्हारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्र गिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वा- ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ईं-नीत जो कुछ भी वहाँ हैं'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित म् <b>ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं</b> <b>गिरवी रखी गईं उग्वल सम्पत्ति का नाम एवं</b> <b>गिरवी रखी गईं उग्वल सम्पत्ति का</b> <b>राग्व, तिथि के साथ बकाया राशि</b> मिस्ती रखी गईं उग्वल सम्पत्ति का <b>सम्प</b> पता, तिथि के साथ बकाया राशि विचरण तथा स्वामी/मार्टगॅंजर का नाम पता, तिथि के साथ बकाया राशि विचरण तथा स्वामी/मार्टगॅंजर का नाम पता, तिथि के साथ बकाया राशि विचरण तथा स्वामी/मार्टगॅंजर का नाम में ग्रीन फिल्इस' के नाम से विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र एएस. में 'ग्रीन फिल्इस' के नाम से विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती कवीत भट्ट, पत्नी कबीर भट्ट, कॉलोनी जे प्राम सराय ख्वाजा, तहसील एवं पताः 718/722, बी-89, नेहरू प्लेस, नईं जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पद्य में स्थित है, 11 बर दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकानः प्लॉट नं. 2678, पुरान (रुपये चार करोड़ चालिस लाख छतीस प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए, एरिया माप 444 इजार एक सौ डन्यासी तथा पैसे चौतीस वर्ग याई्स (प्रथम तल), खसरा नं. 61/4 एवं मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक आगे का 5, एरियाः 444 वर्ग याई्स ब्याज एवं लागतों ऋणधारकः मै. के बी एण्टरप्राइंजेज प्रॉप, श्री कबीर भट्ट, पुत्र श्री ए.एस.भट्ट के ख्वामित्व कबीर भट्ठ, पुत्र ए एस भट्ट पताः 719 ए, में 'ग्रीन फिल्इस' के नाम से विदित आवासीय हेमकुन्ट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नईं कॉलोनी जे प्राम सराय ख्वाजा, तहसील एवं दिल्ली–110019 7.2.2020 को रु. जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पदा में स्थित है, 11 बर दिल्ली–110019 7.2.2020 को रु. जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पदा में स्थित है, 11 बर दिल्ली–110019 7.2.2020 को रु. जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पदा में स्थित है, 11 बर	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इस भौतिक कब्ना किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरंक्षित मूल्य इ. स्थ्रि भुगतान (ईएमडी) स्रण की तिथि एवं रम्मय स्र. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- ठ. ८,90,000/- ठ. ८,90,000/- ४४: ठ४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४:	व्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जम्मा करने के खाता नं. तथा ईएफएस कोड आईएफएस कोड NB0008220 NB0008220 राज व. 20302000017 5ट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोड आईएफएस कोड	(कंपनी अधिनियम (कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावती 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उद्घात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्रों तथा रच पता लिखित ब प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी। तथ होगी। ग) जिन सदरयों को पोस्टल बैलैट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ड वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसटी हस्ताक्षरित पोस्टल बैलैट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा एक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलैट प्रपन्न या ई वोटिंग हा उज सदरयों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत रोयरों के प्रदत मूल्य पर की जाये	मतपप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद द्वारा सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जारी करने रे / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पास्ति किये जाने त तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सवरस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट सूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपन्नों / ई वोटिंग ढारा) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हों. वे डुस्लिकेट पोस्टल बैलैट प्रपन्न प्राप्त करने हें। घो) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपन्न मे तथा द्यारा करने हें। घो यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपन्न ही हम्च्छुक हों. वे पोस्टल बैलैट प्रपन्न मे ती गई यूजर नाम तथा ड) यदि कोई सदस्य इ वोटिंग ढारा मततवान करना चाहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। चो विधिवत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रपन्न वेध नही होगा। मौतिक कत तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छ) ततिथि क्यात 10 02 2020 को कम्पनी के सदस्यों के नाम येगी । ज) यदि कोई व्यक्ति कट आफ तिथि को सदस्य नही
T     T       1     2       1     2       1     2       1     3       1     3       1     4       5     6       7     7       1     6       7     7       1     7       1     7       1     7       1     8       1     7	विवरण ले विवरण लंचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्याप्रक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(डानि) एवं अन्य यापक आय इक्वीटी ज्ञेयर पूँजी रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जेसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29) (1.29) 	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आकेक्षित) (3 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>वित्त)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69	<ul> <li>के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित में गिरवी/चार्ज्द नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत के हीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वान ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत के हीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू आधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत के हीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नील जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू आण्डारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी/चार्ज राया रात्मार को साथ बकाया राशि</li> <li>ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्पत्त का सम्पत्त कि को जायेगी। आरक्षित मू अत्र सिरिय के साथ बकाया राशि</li> <li>किलरण तथा स्वामी/मार्टगैकर का नाम एवं निर्देश रहर तिरीश्व के साथ बकाया राशि</li> <li>किलरण तथा स्वामी/मार्टगैकर का नाम एवं जिलरण तथा स्वामी/मार्टगैकर का नाम विरिक्त अधित पृ ह औमती कबीर भट्ट. पुत्र ए.एस. में 'ग्रीन फिल्ड्स' के नाम से बिदित आवासीय भट्ट, प्रा प्रतार नाक करील एवं पताः 718/722, बी-89, नेहरू प्लेस, नई जिला फरीवाबाद की राजस्व समया में स्वित है, 11 बरें दिल्ली 7.2.2020 को रु 44036179.34 में आवासीय मकानः प्लॉट तं. 2678, पुरान (रुपये चार करोड़ चालिस लाख छत्तीस प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए. एरिया माम 444 इतार एक सौ डन्यासी तथा पैसे चौंतीस वर्ग याई (प्रथम तल), खसरा नं. 61/4 एवं मात्र) तथा भुरातान की तिथि तक आगे का 5, एरियाः 444 वर्ग याई ख ब्याज एवं लागतों</li> <li>ऋणधारकः मै. के बी एण्टरप्राईजेज प्रॉप. श्री कबीर भट्ट, पुत्र श्री ए.एस.भट्ट के स्वामित्व कबीर भट्ट, पुत्र ग्री राख के जाता ह सील प्रा माग्र क्या का का दे स्वान या चई स्व स्वान के तिथि तक आगे का 5, एरियाः 444 वर्ग याई स्व कि ता क्यामत्व कबीर भट्ट, पुत्र प्रा प्र कर्व, न्ह के ल्वामित्व कबीर भट्ट, पुत्र श्री र की का एण्टरप्राईजेज प्रॉप. श्री कबिर साथ क्वा हरी ला का आगे का 5, एरिया क्या या दर्व विदित आवासीय हे मात्र) क्या पर्व का स्वर्य क्या में की का प्रा का का का प्र का का हर ता का वा दित्र आवासीय है मक्र का स, नई कॉलोनी जे प्राम सराय क्वाजा, तहसील एवं क्यामेल का स्वर कर त्या कर कर त</li></ul>	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इस भौतिक कब्ना किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरंक्षित मूल्य इ. स्थ्रि भुगतान (ईएमडी) स्रण की तिथि एवं रम्मय स्र. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- ठ. ८,90,000/- ठ. ८,90,000/- ४४: ठ४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४:	व्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः खाता नं तथा ईएफएस कोड खाता नं. 203020000017 उट बैंक बल्लभगढ़ आईएफएस कोडः NB0008220 	(कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावती 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यस्त कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्रों तथा रव पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी। तथ होगी। ग) जिन सदरयों को पोस्टल बैलैट प्रप्त के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ख वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसर्ट हस्ताक्षरित पोस्टल बैलैट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा एक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलैट प्रपन्न या ई वोटिंग ं द्वारा जब सदस्यों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत रोयरों के प्रदत मूल्य पर की जाये है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लि	मतपप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदडास रूपचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औसीडी जारी करने तेट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने त तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट सूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपन्नों / ई वोटिंग ढास) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हों. वे डुस्लिकेट पोस्टल बैलैट प्रपन्न प्राप्त करने हे हैं। घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपन्न प्राप्त करते हैं इच्छुक हों. वे पोस्टल बैलैट प्रपन्न मे दी गई यूजर नाम तथा ड) यदि कोई सदस्य घोस्टल बैलैट प्रपन्न वे सा वहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। च) विधिवत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रपन्न वैध नही होगा। मौतिक क्त तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छ) हतिथि क्यांत 10 02 2020 को कम्पनी के सदस्यों के नाम येगी । ज) यदि कोई व्यक्ति कट आफ तिथि को सदस्य नही लेये देखें । झ) सदस्य डाक तथा ई वोटिंग दोनो पद्धति मे
<b>t</b> 1 2 3 4 5 6 7 8	विवरण ले संचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(डानि) एवं अन्य यापक आय इक्वीटी शेयर पूँजी रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जेसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया) प्रति शेयर आय (सम मूल्य रू० 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए)	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आकेक्षित) (ड 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 400.00 (47.77)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>वित)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 400.00 -48.64	<ul> <li>के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित 1 गिरवी/चान्हें नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत के ढीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वान ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत के ढीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीव जोर्णेत सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत के ढीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वान ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत के ढीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीव जो कुछ भी बहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित पृ</li> <li>ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्पत्त का प्रता, तिथि के साथ बकाया राशि</li> <li>विचरण तथा स्वर्मी/मार्टगैकर का नाम पता, तिथि के साथ बकाया राशि</li> <li>विचरण तथा स्वर्मी/मार्टगैकर का नाम किसका प्रतिभूत के बाम रे विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र एएस. में भीन फिल्ड्स' के नाम रे विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र एएस. मह के खामिल विदेशकः श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र एएस. में भीन फिल्ड्स' के नाम रे विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र एएस. मह के खामिल विदेखते तिये हैं ना किस्वी राहर ताम राहा है जिला फरीदाबाद की राजरत्व सम्पत्त में स्थित है, 11 बरे दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकानः प्लॉट नं. 2678, पुरान (रुपये चार करोड़ चालिस लाख छतील प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए, एरिया माम 444 इनार एक सौ इच्यासी तथा पैसे चैतीस वर्ग याईस (प्रथम तल), खरारा नं. 61/4 एव मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक आगे का 5, एरिया: 444 वर्ग याईग्र व्याक्सि कबीर भट्ट, पुत्र ए एस भट्ट के खामिल कबीर भट्ट, पुत्र य एक रहर चोत्वर का प्रत्त नई कॉलोनी जे याम सराय ख्वाजा, तहसील एव दिल्ली ना तथा भावों</li> </ul>	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इस भौतिक कब्ना किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरंक्षित मूल्य इ. स्थ्रि भुगतान (ईएमडी) स्रण की तिथि एवं रम्मय स्र. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- इ. ८३,90,000/- ठ. ८,90,000/- ठ. ८,90,000/- ४४: ठ४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४: ४४:	व्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जम्मा करने के खाता नं. तथा ईएफएस कोड आईएफएस कोड NB0008220 NB0008220 राज व. 20302000017 5ट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोड आईएफएस कोड	(कंपनी अधिनियम (कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावती 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उद्धात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी। ग) जिन सदरचों को पोस्टल बैलैंट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ड वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसटी हस्ताक्षरित पोस्टल बैलैट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा एक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलैट प्रपन्न या ई वोटिंग हास उक् सदस्यों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत रोयरों के प्रदत मूल्य पर की जाये है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लि मतदान नही कर सकते हैं तथा यदि कोई स गया मतदान अवैध माना जायेगा।	मतमझ की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 2014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतवडास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीईी आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औसीडी जारी करने ोट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने तं तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सवरस्वता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट पूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिंग ढारा) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 5:00 अप. (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हों. वे डुस्तिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने ते हैं। घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने हे हो घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करते हैं इच्छुक हों. वे पोस्टल बैलैट प्रपत्र में दी गई यूजर नाम तथा ड) यदि कोई सदस्य इ वोटिंग डारा मतत्वान करना चाहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। च) विधिवत पूर्ण एव 020 के 5:00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रपत्र वैध नही होगा। भौतिक कत्त तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छ) तिथि अर्थात 10 02 2020 को कम्पनी के सदस्यों के नाम वेगी। ज) यदि कोई व्यक्ति कट आफ तिथि को सदस्य नही लेये देखें। झ) सदस्य डाक तथा ई वोटिंग दोनों पद्धति में ततस्य दोनों पद्धतियों से मतदान करसे ई वोटिंग दोनों पद्धति में ततस्य दोनों पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक ढारा किया य) पोस्टल बैलैट सूचना कम्पनी की वेबसाईट
	विवरण         लंचालन से कुल आय         अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर.         विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी)         कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद)         कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद)         कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद)         अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (डानि) एवं अन्य यापक आय         इक्वीटी शेयर पूँजी         रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जेसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)         प्रति शेयर आय (सम मूल्य रू० 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल:	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आकेक्रित) (ड 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 400.00 (47.77) 0.0030	समाप्त तिमाडी 31.12.2018 (अनअंके <b>बित)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 400.00 -48.64	<ul> <li>के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित 1 गिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत केढीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वार ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत केढीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीव जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू छलाधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का जायेथि। आरक्षित मू छलाधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का प्रतिभूत केढीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीव जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू छलाधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्पत्त कि स्वराधार करा बकता प्रतार, तिथि के साथ बकाया राशि गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्पत्त कि समय बकाया राशि विदिश आधार तथा स्वमी/स्थार्टगंजर का नाम करे किरिय है, गुत्र एएस. भट्ट के ख्वामिल विदेशकः श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र एएस. म्यु के ताम से विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र एएस. मह के स्वार बकी तथे स्वर करोड वालि लाख छतील प्यतं र न प्रयाद खवाना, तहसील एवं पत्ता र18/722, बी-८७, ने हेरू पते, नई जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पत्त में स्विद है, 11 बरे दिल्ली 7.2.2020 को र 44036179.34 में आवासीय मकानः प्लॉट नं. 2678, पुरान (रूपये चार करोड चलिस लाख छतीस प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए, एरिया माम 444 इवार करोड चलिस लाख छतील प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए, एरिया माम 444 इवार करोड चलिस लाख छतील प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए, एरिया माम 444 इवार कबी स्वर, 11 बरे तिर्थ तात तो कि बी एण्टरप्राईजेज प्रॉप, श्री काबीर मट्ट, पुत्र श्री प्रत ती वायासीय स्वकार करा के ह परित के काये का 5, एरिया: 444 वर्ग चाई थ व्याय एव लागतों</li> <li>ऋणधारक: मै के बी एण्टरप्राईजेज प्रॉप, श्री कबीर मट्ट, पुत्र श्री प्रत है, 11 बरे 16875586.20/- (रुप भट्ट फरो हर्ग के ताम राय ख्वजा, तहसीत एवं दिल्लाती एवं पेसे बीस मात तथा भुगतान की वर्ग चाई स (दूसरा तल), खरार नं. 61/4, एवं तिथि तक आगे का ब्या प्रातन की वर्ग वाई स (दूसरा तल), खरार नं. 61/4, एवं तिथि तक आगे का ब्या पुरातन की वर्ग पाई र (दूसरा तल), खरार नं. 61/4, एवं तिथि तक आग का था प्र तत तरा वा</li></ul>	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, ोलामी तिथि 13.3.2020 को *** मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरश्चित मूल्य इ. छा,00,000/- इ. ८,90,000/- इ. ८,9	वों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः खता नं तथा ईएफएस कोड खाता नं. 203020000017 उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोड NB0008220	(कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावती 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उद्धात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट र निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्रों तथा स्य पता लिखित ब प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलैट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ख वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसटी हस्ताक्षरित पोस्टल बैलैट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा एक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलैट प्रपन्न या ई वोटिंग हास डव सदस्यों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत रोयरों के प्रदत मूल्य पर की जाय है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लि मतदान नही कर सकते हैं तथा यदि कोई स गया मतदान अवैध माना जायेगा।	मतमझ की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 2014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अप्रेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतवडास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीईी आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जारी करने ोट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने ां तथा पोस्टल बैलैट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सवरस्वता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बेलैट पूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिंग ढारा) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हो. वे डुस्तिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने हे हो घ) यदि कोई सवरस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करते हैं इच्छुक हों. वे पोस्टल बैलैट प्रपत्र में दी गई यूजर नाम तथा ड) यदि कोई सवरस्य घोस्टल बैलैट प्रपत्र में ती गई यूजर नाम तथा हो यदि कोई सवरस्य घोस्टल बैलैट प्रपत्र में ती गई यूजर नाम तथा हो यदि कोई सवरस्य घोस्टल बैलैट प्रपत्र वे पार्ट प्राप्त प्राप्त करते हैं हच्छुक हों. वे पोस्टल बैलैट प्रपत्र में दी गई यूजर नाम तथा हो यदि कोई सवरस्य इ वोटिंग डारा मतत्वान करना चाहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। च) विधियत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सवस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रपत्र वेध नही होगा। भौतिक कत तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छ) तिथि अर्थात 10 02 2020. को कम्पनी के सवस्यां के नाम येगी। ज) यदि कोई ब्यक्ति कट आफ तिथि को सवस्य नही लेये देखें। झ) सदस्य डाक तथा ई वोटिंग दोनों पद्धति मे तत्स्य दोनों पद्धतियों से मतदान करसे हैं तो डाक ढास किया य) पोस्टल बैलैट सूचना कम्पनी की साक्ष ही साथ
<b>ti</b> 1 2 3 4 5 6 7 8	विवरण         लंचालन से कुल आय         अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर.         विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी)         कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद)         कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद)         अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(डानि) एवं अन्य यापक आय         इक्वीटी शेयर पूँजी         रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जेसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)         प्रति शेयर आय (सम मूल्य रू० 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल:	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आकेक्षित) (ड 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 400.00 (47.77)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>वित)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 400.00 -48.64	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित री गिरवी/चार्ज्व नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत केढीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वार ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत केढीटर के बकाये की वसूली के लिये ईं-नीत जो कुछ भी वहाँ हैं'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरर्थित म् इणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पति का समय कि जे कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरर्थित म् इणधारक: से रात माइको प्रालि जिंक केढीटर के बकाये की वसूली के लिये ईं-नीत जे कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरर्थित म् इणधारक: से रात माइको प्रालि, आं कबीर पट्ट, पुत्र औ एएस. मट्ट के खामिल विदेशक: औमती कबीर भट्ट, पुत्र ग्र एस. में' ग्रीन फिल्इस' के नाम से विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र ग्री एवं स्थ को के स्थय कि जोर भट्ट, पुत्र ग्री राते के कि स्थ हु पुत्र औ जबारी महत्स्त' के नाम से विदित आवासीय मह, श्रीमती कवीर भट्ट, पुत्र ग्रे खते, नई जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पत्त में अति राहर ते त्वरि त स्थय के वाति राहर ते त्या राहर ते त्या राहर ते ते त्या राहर ते ते त्या राहर ते ते तो करीर भट्ट पुत्र औ वरित आवासीय मह, श्रीमती कवीर भट्ट, पुत्र ग्रे करेत, नई जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पत्त में सिंख है, 11 बरे दिल्ली 7.2.2020 को रु 44036179.34 में आवासीय मकान: प्लॉट नं 2678, पुरान (रुपये चार करोड़ चालिस लाख छतील प्लॉट नं यू-139, सेक्टर-ए एरिया माम 444 इजार एक तो उन्यासी तथा पैसे चौतील का र, एरिया स्थ तता, उट78, पुरान कबी तिथि तक आगे का र, एरिया स्थ स्थ ता राई आवासीय स्थाज पूर्व राख तरें, 89, नेहरू प्लेस, नई कॉलोनी के प्राम सराय ख्वाजा, तहसील एवं दिल्ली नाई राहर ते हकार सो, नई कॉलोनी के प्राम सराय ख्वाजा, तहसील एवं दिल्ली नाका रहे देहत्यासो का साहर ते करेता के जिला करीदावाद की राजस्व स्थावारी के स्थान है, 13 करे 1985र586.20/- (रुपये एक करोड़ में आवासीय मकान: प्लॉट नं 2678, पुरान अध्व दिल्ली–110019 7.2.2020 को रु जिलोनीने जे प्राम सराय ख्वाजा, तहरील एवं दिल्ली क्वार मंड, 89, नेहरू प्लेस, नई कॉलोनी के प्राम सराय ख्वाजा, तहरति लं वादि त्वातर कर्या क स्था हार हर हत र कार मां सो प	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इस भौतिक कब्ना किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरंक्षित मूल्य र रात्रि भुगतान (ईएमडी) स्रण की तिथि एवं रम्मय अपने तिथि एवं रम्मय क. ८७,00,000/- क. ८,90,000/- क. ८,90,000/- क. ८,90,000/- वने पूर्वा, से 4.00 बने अप. शाखा अ SKI           क. ८७,00,000/- क. ८,90,000/- क. ८,90,000/- वने पूर्वा, से 4.00 बने अप. शाखा अ SKI           क. ८७,00,000/- क. ८,90,000/- घ. ८,90,000/- ठ. ८,90,000/- धरिडिके बने पूर्वा, से 4,00 बने अप. शाखा अ SKI           क. ८७,00,000/- क. ८,90,000/- इ. ८,90,000/- धरिडिके बने पूर्वा, से 4,00 बने अप. शाखा अ SKI	व्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जम्मा करने के खाता नं. तथा ईएफएस कोड आईएफएस कोड NB0008220 NB0008220 राज व. 20302000017 5ट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोड आईएफएस कोड	क्षम्यनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावती 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उद्यात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलैट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ड वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसटी हस्ताक्षरित पोस्टल बैलैट प्रपन्न 12 03 200 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलैट प्रपन्न या ई वोटिंग हारा उक् सतरयों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत शेयरों के प्रदत मूल्य पर की जाय है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लि मतदान नही कर सकते हैं तथा यदि कोई स गया मतदान अवैध माना जायेगा। www.siishadilal.com स्टॉक एक्सवैंज नेशनल सिक्युरिटीव डिपाजिटरी लिमिटेड की	मतमझ की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 2014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतवडास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीईी आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औसीडी जारी करने ोट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने तं तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सवरस्वता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट पूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिंग ढारा) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 5:00 अप. (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हों. वे डुस्तिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने ते हैं। घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने हे हो घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करते हैं इच्छुक हों. वे पोस्टल बैलैट प्रपत्र में दी गई यूजर नाम तथा ड) यदि कोई सदस्य इ वोटिंग डारा मतत्वान करना चाहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। च) विधिवत पूर्ण एव 020 के 5:00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रपत्र वैध नही होगा। भौतिक कत्त तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छ) तिथि अर्थात 10 02 2020 को कम्पनी के सदस्यों के नाम वेगी। ज) यदि कोई व्यक्ति कट आफ तिथि को सदस्य नही लेये देखें। झ) सदस्य डाक तथा ई वोटिंग दोनों पद्धति में ततस्य दोनों पद्धतियों से मतदान करसे ई वोटिंग दोनों पद्धति में ततस्य दोनों पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक ढारा किया य) पोस्टल बैलैट सूचना कम्पनी की वेबसाईट
1 2 3 4 5 6 7 8	<ul> <li>विवरण</li> <li>संचालन से कुल आय</li> <li>अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी)</li> <li>कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य यापक आय</li> <li>इक्वीटी शेयर पूँजी</li> <li>रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शावा गया)</li> <li>प्रति शेयर आय (सम मूल्य रू० 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल:</li> </ul>	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (0.0032)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आंकेक्षित्त) (ड 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 400.00 (47.77) 0.0030 0.0030	समाप्त तिमाडी 31.12.2018 (अनअंके <b>बित)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 400.00 -48.64	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्रं गिरवी/चार्ण्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत केडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वान् ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत केडीटर के बकाये की वसूली के लिये ई–नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित म्र्रक्रणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अचल सम्पति का सम्पत्ति के साथ बकाया राशि मिंत्री रखी गई अचल सम्पति का साथ बकाया राशि मिंत्री रखी गई अचल सम्पति का सम्पत्ति के साथ बकाया राशि मिंत्री रखी गई अचल सम्पति का सम्पत्ति के साथ बकाया राशि मिंत्री रखी गई अचल सम्पति का सम्पति का साथ बकाया राशि मिंत्री रखी गई अचल सम्पति का सम्पति के साथ बकाया राशि मिंत्री रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्पति के साथ बकाया राशि मिंत्री रखी गई अचल सम्पत्ति का सम्पति विशेषक: श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र एएव. में भीन फिल्हद्व' के नाम ये विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती ज्वीर भट्ट, पुत्र एएव. में भीन फिल्हद्व' के नाम ये विदित आवासीय भट्ट, श्रित 2, 2020 को रु 44036179.34 में आवासीय मकान: प्लॉट नं. 2678, पुरान (रुपये वार करोड़ चालिस लाख छतीत प्लॉट नं. यू–139, सेकर-ए, एरिया नाम 444 हजार एक सौ उन्याति तिर्थि तक आगे का दिल्ली न. 2,2020 को रु 4036179.34 में आवासीय मकान: प्लॉट नं. 2678, पुरान (रुपये वार करोड़ चालिस लाख छतीत प्लॉट नं. यू–139, सेकर-ए, एरिया नाम 444 हजार एक सावते मिल्ल क्या कि आर अदा पह रा यू–139, सेकर-ए, एरिया नाम 444 हजार एक सी उन्याती वया पैसे चौती का कीर भट्ट, एरिया साम 444 हजार आई आ हला को जिल करी का प्रति के आगे का 5, एरिया: 444 वर्ग आईश्व होवित आवासीय स्वर्क के हतामेल कबी भट्ट, पुत्र ए एक करोड़ मों आवासीय मकान: प्लॉट नं. 2678, पुरान अधिकर भट्ट, पुत्र में आव सिल मिल्ल क्यां में स्वित है, 11 बरे 16875586.20/- (रुपये एक करोड़ मों आवासीय मकान: प्लॉट नं. 2678, पुरान अध्कर के लामिल वर्व कि का समा तथा भुगतान की वर्य तक त्या का तर्व याईश (दूसर तल), खरा नं 61/4 एव दि तिथ तक्या से प्र दे बोस मात वथा भुगतान की वर्त का त्या देन यू–139, सेकटर-ए, एरिया के, 11 बरे 16875586.20/- (रुपये एक करोइ मों आवासीय मकान: प्लॉट सं 2, 2678, पुरान अध्वरिक क आगे का ब्या पात के वर्त दुन्य	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को *** मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरश्चित मूल्य र रात्रि भुगतान (ईएमडी) क्र रात्रि भुगतान (ईएमडी) क्र रात्रि भुगतान (ईएमडी) क्र रात्रि भुगतान (ईएमडी) के प्रवी तिथि एवं रमय क. ८७,00,000/- रू. ८,90,000/- रू. ८,90,000/- रू. ८,90,000/- त्र ८,90,000/- के प्रवी, से 4,00 बजे अप. शाखा अ डK1           क. ८७,00,000/- रू. ८,90,000/- रू. ८,90,000/- रू. ३,90,000/- रू. ३,90,000/- रू. ३,90,000/- रू. ३,90,000/- रू. ३,90,000/- रू. ३,90,000/- रू. ३,90,000/- रू. ३,90,000/- ठ. ३,90,000/- रू. ३,90,000/- ठ. ३,90,000/- ठ. ३,90,000/- ठ. ३,90,000/- ठ. ३,90,000/- ठ. ३,90,000/-	त्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जम्मा करने के खता नं. २०३०२०००००१७ उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोडः NB0008220 खाता नं. २०३०२०००००१७ उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोडः NB0008220	किम ने इं वोटिंग सुविधा प्राप्त ने सि के बाद से से के स्वाधिकार की प्राप्त करने हैं तथा प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट स्वीदेव किया जाता है कि पोस्टल बैलेट स्विदेव किया जाता है कि पोस्टल बैलेट स्विदेव किया जाता है कि पोस्टल बैलेट स्विदेवकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट स्वीदेवताल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेधक नियुक्त किया गया है। स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेधक नियुक्त किया गया है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) के पोस्टल बैलेट प्रपत्न किया जाता है कि क) के पोस्टल बैलेट प्रपत्न तथा पर सिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी। तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट प्रपत्न के सिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के हे पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ख वे 12 03 2020 5:00 बजे अप (आईएसर्ट हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट प्रपन्न या ई वोटिंग हास उक स्वर्र्स के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत रोयरों के प्रदत्त मूल्य पर की जाये है। स्वर्यों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत रोयरों के प्रदत्त मूल्य पर की जाये है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लिय नवान नही कर सकते हैं तथा यदि कोई स गया मतदान अवैध माना जायेगा। www.sirshadilal.com स्टॉक एकस्वोंक नैशनर वे इं वोटिंग सिमिटेड की इं वोटिंग सिमिटेह कि इं वोटिंग से सम्बन्धित किसी प्रत्नों भरनरों के लिए करवार्य के स्वर्य के लिए करवारी ही लिमिटेड की इं वोटिंग से सम्बन्धित किसी प्रत्नों रे अनुरोध ई वोटिंग से सम्बन्धित किसी प्रत्नों रक्त के इं वोटिंग से की स्वर्य संवर्य के के स्वर्य के लिए सदस्यों के लिप स्वर्य से अनुरोध	मतमप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 2014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षों) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदड़ास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीईी आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओरीडी जारी करने तेट / इलेक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने ते तथा पोस्टल बैलैंट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सवस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैंट सूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैंट प्रपत्रों / ई वोटिंग डास) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंव पत्र प्राप्त नही हों. वे डुस्तिकेट पोस्टल बैलैंट प्रपत्र प्राप्त करने हे हैं। घो यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैंट प्रपत्र प्राप्त करने हे हो घो यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैंट प्रपत्र प्राप्त करने हे हो घो यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैंट प्रपत्र प्राप्त करने हे हो घो यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैंट प्रपत्र में ता साह रा तुरुवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंव पत्र प्राप्त नही हों. वे डुस्तिकेट पोस्टल बैलैंट प्रपत्र प्राप्त करने हे हो घो यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैंट प्रपत्र बैले ट प्रपत्र प्राप्त करने हो घो यदि कोई सदस्य ई वोटिंग द्वारा मतवान करना चाहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। चो विधिवत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पार सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैंट प्रपत्र वेध नही होगा। भौतिक कत तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छ) तिथि अर्थात 10 02 2020 को कम्पनी के सदस्यों के नाम येगी । ज) यदि कोई व्यक्ति कट आफ तिथि को सदस्या ही लेये देखें । झ) सदस्य डाक तथा ई वोटिंग दोनो पद्धति मे तरस्य दोनों पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक द्वारा किया य) पोस्टल बैलैट सूचना कम्पनी की वेबसाईट की वेबसाइट www.b9eindia.0000 के साथ ही साथ की वेबसाइट www.voting.nsdl.0001 पर उपलब्ध है । । है कि पोस्टल बैलैट सूचना में दिये गये निर्रेशों को देखें तथा मरस्याओ के लिए सदस्य www.evoting.nsdl.0001 के
र <b>स</b> अ 1 2 नग 3 3 1 4 5 6 7 8 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	<ul> <li>विवरण</li> <li>संचालन से कुल आय</li> <li>अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी)</li> <li>कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि)) एवं अन्य यापक आय</li> <li>इक्वीटी शेयर पूँजी</li> <li>रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जेसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)</li> <li>प्रति शेयर आय (सम मूल्य रू० 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल:</li> <li>रम्पगी:</li> <li>सेवी (सूची ओब्लीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आ</li> </ul>	(फ० ल समापत तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (0.0032) (0.0032) (0.0032)	लाखों में. ईपीएस वार्शिक <b>31.03.2019</b> (आंकेसित) ( 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 (47.77) 0.0030 0.0030	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>बित)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 400.00 -48.64 0.0017 0.0017 0.0017	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्रींगित्यान्हें नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत के ढीटर के प्रधिकृत अधिकारी द्वान्त्रम्यारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत के ढीटर के बकाये की वसूली के लिये इंन्नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित प्रता, तिथि के साथ ककाया राशा विशेष रखी गईं अचल सम्पत्ति का सम्पत्त का कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित प्रता, तिथि के साथ ककाया राशा गिरती रखी गईं अचल सम्पत्ति का सम्पत्त का सम्पत्त का सम्पत्त का साथ ज्वाता तरा पारन्टरों का नाम एवं वितरण तथा स्वामी/स्पार्टगंजर का नाम की क्विंश भट्ट, पुत्र प्रएस, में 'ग्रीन फिल्ह्स' के नाम से विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती कबीर भट्ट, पुत्र एएस, में 'ग्रीन फिल्ह्स' के नाम से विदित आवासीय भट्ट, श्रीमती ज्वाति भट्ट, पत्नी कबीर भट्ट, कॉलोनी जे याम सराय ख्वाजा, तहसील एवं पताः 718/722, बी-99, नेहरू प्लेस, नई जिला फरीदाबाद की राजरल सम्पत्त में स्वित है, 11 बर दिल्ली 7.2.2020 को रु 44036179.34 में आवासीय मकानः प्लॉट नं. 2678, पुरान माम 444 हजार एक सौ उन्यासी तथा पैसे चौतीस वर्ग याईस (प्रथम तल), खरा नं. 61/4 एवं मान्न) वर्था अन्तेत्र महत्त्र ने की एण्टरप्राईनेज प्रांप अं कार्य पर्याहर्य के नाम से विदित आवासीय कवा प्रथा कि कार पह पुरात होती के याम सताय ख्वाजा, तहसील एवं पताः 718/722, बी-99, नेहरू प्लेस, नई कॉलोनी जे प्राम सताय ख्वाजा, तहसील एवं क्वार एक सरोड चालिस लाख छतीस प्रतंट नं. यू-139, सेक्टर-ए एरिया माम 444 हजार एक स्व इंचलार तिर्थि तक आगे का 5, एरियाः 444 वर्ग याईस क्वात्सीय सात्र, 89, नेहरू पत्रे, नई कॉलोनी जे प्राम सराय ख्वाजा, तहसील एवं दिल्ली ने किंग फरीदाबाद की राजरत्व सम्पदा में स्विद, 11 बर विश्वरक्त हमा गावों	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इरा भौतिक कब्ना किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरस्थ्रित मूल्य र राशि भुगतान (ईएमडी) श्रण की तिथि एवं रम्मय क. 89,00,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- ठ. 3,90,00/- ठ. 3,90,	वों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जमा करने के खाता नं. तथा ईएफएस कोड आईएफएस कोड NB0008220 खाता नं. 203020000017 उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोड NB0008220	किंग ने भी किंग के प्राप्त करने के किंग ने के प्राप्त के प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट स के प्राप्त किंग जाता है कि पोस्टल बेलेट स लिये को जाता है कि पोस्टल बेलेट स निवेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारवर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलेट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट प्रप् के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ड वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसटी हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट प्रपन्न 12 03 200 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलेट प्रपन्न या ई वोटिंग हारा उक् सतरयों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत शेयरों के प्रदत मूल्य पर की जाय है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लि मतदान नही कर सकते हैं तथा यदि कोई स गया मतदान अवैध माना जायेगा। www.siishadilal.com स्टॉक एक्सचॅज नेशनल सिक्युस्टिवि डिपाजिटरी लिमिटेड की ई वोटिंग निर्वेशों के लिए सदस्यों से अनुरोध ई वोटिंग सि सम्बन्धित किसी प्ररनों, एस डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'सदस्यों के लि	मतमप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 2014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षो) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदड़ास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीईी आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औरीडी जारी करने तेट / इलैक्ट्रानिक वोटिग (ई वोटिग) द्वारा पारित किये जाने ते तथा पोस्टल बैलैट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट सूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिग ढास) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंव पत्र प्राप्त नही हो. वे डुस्तिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने ते हैं। य) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने हे थु यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करते है इच्छुक हों, वे पोस्टल बैलैट प्रपत्र में दी गई यूजर नाम तथा ८) यदि कोई सदस्य ई वोटिंग ढासा मतवान करना चाहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। यो विधिवत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रपन्न वेध नही होगा। मौतिक कत तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छ) तिथि अर्थात 10 02 2020 को कम्पनी के सदस्यों के नाम येगी 1 ज) यदि कोई व्यक्ति कट आफ तिथि को सदस्य नही लेये देखें । झ) सदस्य डाक तथा ई वोटिंग दोनो पद्धति में तत्थय दोनों पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक द्वारा किया य) पोस्टल बैलैट सूचना कम्पनी की वेबसाईट की वैबसाईट www.bseindia.com के साथ ही साथ की वेबसाइट www.voting.nsdl.com. पर उपलब्ध है । । है कि पोस्टत बैलेट सूचना में दिये गये निर्देशों को देखें तथा
र <b>स</b> अ 1 2 नग 3 3 1 4 5 6 7 8 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	<ul> <li>विवरण</li> <li>संचालन से कुल आय</li> <li>अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी)</li> <li>कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य यापक आय</li> <li>इक्वीटी शेयर पूँजी</li> <li>रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शावा गया)</li> <li>प्रति शेयर आय (सम मूल्य रू० 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल:</li> </ul>	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (1.29) (0.0032) (0.0032) (0.0032)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (अंकेक्रित) (उ 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 (47.77) 0.0030 0.0030 0.0030	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके <b>बित)</b> 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 400.00 -48.64 0.0017 0.0017 0.0017	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्रे गिरवी/चार्न्ड नीचे वाणित सम्मत्ति जिसका प्रतिभूत केढीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत केढीटर के बकाये की वसूनी के लिये ई-नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू क्रिणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत केढीटर के बकाये की वसूनी के लिये ई-नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मू क्रिणधारक: से रात्र वक्र तथा गरन्टरों का जाए प्रता हित्त रात्र रवामी/मार्टगंजर कर नमा क्रिकि तथा गरन्टरों का जाए प्रता हित्त प्रता गरन्टरों का जाए प्रता हित्त प्रता रात्र रवामी/मार्टगंजर कर नमा क्रिकि कबीर भट्ट, पुत्र और दे रात्र स्वापी/मार्टगंजर कर नमा क्रिकि कबीर भट्ट, पुत्र एएस. मई के रवामित्व तिरिक्र औगती कबीर भट्ट, पुत्र एएस. मई के रवामित्व तिरिक्र औगती कबीर भट्ट, पुत्र एएस. मई के रवामित्व तिरिक्र औत्र ती कबीर भट्ट, पुत्र और कवीर भट्ट, पुत्र और दर ते दिर सुच ते तथा परि चौतिर लाख छतीर पत्र प्रत प्रत रात्र रवमी//मार्टगंजर कर नमा किर्ति रात्र तथा परि वौतिर का कारी महत्वर करा समय हिंग तथा राहर ते 2000 को रु 44036179.34 में आवासीय मकानः प्लॉट नं .2678, पुरान (रूपये चार करोड़ चलिस लाख छतीर प्लॉट नं पू-139, सेक्यर-ए एरिया माम 444 हजार एक सौ उन्यति कि तक आगे का 5, एरिया 444 वर्ग याईस ब्या प्रत दें, 11 बर विश्व हित्व वालासी का क्रिय कि क्रा न्य करा हरीत या परित है, 11 कर विश्व हर पुत्र एक करोड़ में आवासी समा तथा खवाजा, तहसीत एव दि त्य वासीय सकडा रात्र तथा सुपत ही कित्र डा ता त्य जा करी का त्य त्य त्य के तानित्व करिय हर पुत्र ये क करोड़ में आवासीय मकानः प्लॉट तं .2678, पुरान कि विधि तक आगे का 5, एरिया स्वर के तानि के ता सरय ख्वाजा, तहसीत एव दि, 11 बं 16875886.20/- (रुपये एक करोइ में आवरों माकरे क्रा हमें आवासीय मकनः प्लॉट तं .2678, पुरान अडकर त्य या प्रत के कार सा त्य करात के लागतें) इ, एरिया दिव को को साम तरा था भूता के किर कि का वा तर्द हर पुरा या मा 444 छिया सि क का मात तथा भुगता के वर्ग त्य के साम रा वर्ड, (द्वर तन, खरा, रहते हा रातेत कर करा का लागतों) के प्रा स सकर हत्त त्य तर त्य वा ना तर	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इरा भौतिक कब्ना किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरस्थ्रित मूल्य र राशि भुगतान (ईएमडी) श्रण की तिथि एवं रम्मय क. 89,00,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- ठ. 3,90,00/- ठ. 3,90,	त्यों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जम्मा करने के खता नं. २०३०२०००००१७ उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोडः NB0008220 खाता नं. २०३०२०००००१७ उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोडः NB0008220	किपनी अधिनियम (कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावती 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उद्घात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बेलैंट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तर की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैंट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैंट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बेलैंट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ख वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसर्ट हस्ताक्षरित पोस्टल बैलैंट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बेलैट प्रपन्न या ई वोटिंग हारा डक सतरसों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत शेयरों के प्रदत मूल्य पर की जाय है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लि मतदान नहीं कर सकते हैं तथा यदि कोई स गया मतदान अवैध माना जायेगा। www.sirshadilal.com स्टॉक एक्सबैंज नेशनल सिक्युस्टिव डिपाजिटरी लिमिटेड की ई वोटिंग सि सम्बच्चित किसी प्रश्नो / स्व डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'सवरसों के लि के लि 'ई वोटिंग यूजर मैन्युअल'' देखे अथव विनिर्दिष्ट ई मेल आईडी evoting(	मतापन्न की सूचना म, 2013 की घारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम'') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदडास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औसीडी जारी करने ोट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने i तथा पोस्टल बैलैट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट सूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिंग ं ढास) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हो. वे डुस्तिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने हें। घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपन्न प्राप्त करने हें। घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपन्न प्राप्त करने हें। घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने हें। घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने हें। घो यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपन्न मत्या था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हो. वे डुस्तिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने हें। घो यदि कोई सदस्य घोर्टल बैलैट प्रपन्न यत्र नाम तथा ही। चो यदि कोई सदस्य ई वोटिंग डारा मतदान करना चाहते हो टींगति अपना मतदान कर सकते हैं। चो विधिवत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सत्त रिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छो तिथि अर्थात 10 02 2020 को कम्पनी के सदस्य नही तेये देखें । झ) सदस्य डाक तथा ई वोटिंग दोनो पद्धति मे तत्वरय दोनों पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक द्वारा किय या पोस्टल बैलैट सूचना कम्पनी की येबसाईट की वेबसाइट www.bseindia.com के साथ ही साथ की वेबसाइट www.voting.nsdl.com. पर उपलब्ध है । ह कि पोस्टल बैलेट सूचना में दिये गये निर्देशों को देखें तथा मनरयाओ के लिए सदस्य www.evoting.nsdl.com वे तये Frequently Asked Question (FAQ's) तथा सदस्या वा टोल फी नं0 1800 222 980 कॉल करें या एनऐडीएल से (@nsdl.co.in या टेलीफोन न 91 22249994600
र <b>स</b> अ 1 2 नग 3 3 4 5 1 2 7 3 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 1 7 8 7 1 7 8 7 1 7 8 7 1 7 8 7 1 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	विवरण लंचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य यापक आय इववीटी रोयर पूँजी रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जेसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्जाया गया) प्रति शेयर आय (सम मूल्य रू० 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल: <b>टप्पणी:</b> सेबी (सूसी ओब्सीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आ दिसम्बर, 2019 को उपरोक्त समाप्त तिमा प्ररिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एक्सचे कपनी ने 1 अप्रैल, 2017 इण्डियन एकाछ	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आंकेक्षित) (ड 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 (400.00 (47.77) 0.0030 0.0030 0.0030	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके बित) 3.14 0.69 0.0017 0	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित 1 गिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूति हेत के बकाये की वसुली के लिये ईं-नीत जे कुछ भी वहाँ हैं'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरिक्षत मु्माधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत के डीटर के बकाये की वसुली के लिये ईं-नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरिक्षित मु ऋणधारक क्या गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रही गई अचल सम्पत्ति का सम्पत्ति का मिल्ते हैं'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरिक्षित मु ऋणधारक: मै. राग माइको प्रा.लि. श्री कबेरे भट्ट पुत्र श्री एएस.भट्ट के स्वामित्व तेदेशक: श्रीमती कबोर भट्ट पुत्र एएस. में 'ग्रीन फिल्दुस' के नाम से बिदित आवासीय भट्ट, श्रीमती कवीर भट्ट पत्नी कबीर भट्ट कॉलोनी जे याम सराय ख्वाजा, तहसील एवं पता: 718/722, बी-छ, नेहरू प्लेस, नई जिता फरीदाबाद की राजस्व सम्पत्ते में स्विर है, 11 बरे दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकान: प्लॉट नं. 2678, पुरान (रुपये चार करोड़ चलिस लाख छतीस प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए. एरिया माम 444 इवार एक सो डन्यासों तथा पैसे चौतीस वर्ग याईस (प्रथम तला), खसरा नं. 61/4 एवं मात्र) तथा पुरातान की तिथि तक आगे का ५, एरिया 444 वर्ग याईस व्याव एवं लागतों ऋणधारक: मै. के बी एण्टरप्राईंजेन प्रॉप, श्री कबेरी भट्ट पुत्र श्री एएस.भट्ट के स्वामित्व कबीर भट्ट, पुत्र प एस भट्ट पता: 719 ए में 'ग्रीन फिल्ट्स' के नाम से विदित आवासीय हेमकुन्ट चेम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई कॉलोनी ने याम सराय खवाजा, तहसील एवं दिल्ली-110019 7.2.2020 को रु. जिंसा फरीदाबाद की राजस्व सम्पदा में स्थित है, 11 बरे 16875586.20/- (रुपये एक करोड् में आवासीय मकान: प्लॉट तं. 2678, पुरान अडप्रार ताख पचहतर हजार पांच तो प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए, एरिया माम 444 छिमारी एवं येसे बोस मात्र तथा भुगतान की वर्ग याईस (दुस्स तल), खररा नं. 61/4, एवं तिथि कक आगे का ब्याव एवं लागतों) ५, एरिया त्रीन, खरा सुईस उक्ट लाख तर मं है रियत है, 11 बरे 1687586.20/- (रुपये एक करोड् मार्केट, यूग्रेलिक्त, एरिया ना के पास, प्रयुद वी, एससीएफ-49, सेक्टर-3, डुडा मार्केट, कॉग्रियेल कॉस परी वाई या क्रिय के दावार, न्री वाकुमा फरोदाबाद, 7	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इस भौतिक कब्ना किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरस्थित मूल्य र राशि भुगतान (ईएमडी) श्रण की तिथि एवं रम्मय क. 89,00,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- ठ. 3,90,00/- ठ. 3,90,00/-	वों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जमा करने के खाता नं. तथा ईएफएस कोड आईएफएस कोड NB0008220 खाता नं. 203020000017 उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोड NB0008220	(कंपनी अधिनियम (कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावती 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उद्घार साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013/"अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैंट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैंट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैंट का प्रस्ताव है । स्वस्थों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैंट प्रपत्रों तथा रच पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलैंट प्रप्त के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ड वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसटी) हस्ताक्षरित पोस्टल बैलैंट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलैट प्रपन्न या ई वोटिंग हास उक्ष सत्रस्यों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत शेयरों के प्रदत मूल्य पर की जाय है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लि मतदान नहीं कर सकते हैं तथा यदि कोई स गया मतदान अवैध माना जायेगा। www.sirshadilal.com स्टॉक एक्सबैंज ई वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्यों से अनुरोध ई वोटिंग सिर्वेशों के लिए सदस्यों से अनुरोध ई वोटिंग सि सम्बन्धित किसी प्ररनों / स्म डाउनलोड खंड में उपलस्थ "सनुस्थों के लि वे ति 'ई वोटिंग यूजर मैन्युअल'' देखें अथव विनिर्दिष्ट ई मेल आईडी evoling( + 91 2224994545 पर या श्री अजय कुमा	मतापन्न की सूचना म. 2013 की घारा 110 के अधीन) 8014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदडास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के राजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जारी करने ट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने 1 तथा पोस्टल बैलैट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट पूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रय्विया का पर्यवेक्षण करने के लिय पत्र प्राप्त नही हों. वे डुस्तिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्न ग्राप्त करने हों । घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्न ये से दिर्य प्रमाण करते है इच्छुक हों. वे पोस्टल बैलैट प्रयत्ने मेर्टल बैलैट प्रयत्न प्राप्त करने हों । घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रयत्न प्राप्त करने हों । घ) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रयत्न प्राप्त करने हों हो थो यदि कोई सदस्य घोस्टल बैलैट प्रयत्न प्राप्त करने हों के अपमा मतदान कर सकते हैं। चो विधिवत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रयत्न वैध नही होगा। मौतिक कत तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छ) तिथि अर्थात 10 02 2020 को कम्पनी के सदस्या हो नाम येगी । ज) यदि कोई व्यक्ति कट आफ तिथि को सदस्य नही लेये देखें । झ) सदस्य डाक तथा ई वोटिंग दोनो पद्धति में ततस्य दोनों पद्धतियों से मतदान करसते हैं तो डाक द्वारा किया य) पोस्टल बैलैट सूचना कम्पनी की वेबसाईट की वेबसाइट www.bseindia.com के साथ ही साथ की वेबसाइट www.voiing.nsdl.com. पर उपलब्ध है । ा हे कि पोस्टल बैलेट सूचना में दिये गये निर्देशों को देखें तथा सस्पयाओ के लिए सदस्य www.evoling.nsdl.com के तये Frequently Asked Question (FAQ's) क्या सदस्या वा टोल फी न्व 1800 222 980 कॉल करें या एनऐडीएल से
भाषा ते था ते में प्रसार के कनें ही - ट्रिके : जा खे 2.	विवरण संचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(झनि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (झनि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (झनि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य यापक आय इक्वीटी शेयर पूँजी रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया) प्रति शेयर आय (सम मूल्य रू० 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल: <b>प्रणागि</b> सेवी (सूझी ओब्सीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आ दिसम्बर, 2019 को उपरोक्त समाप्त तिमा प्ररिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एक्सचे कम्पनी ने 1 अप्रैल. 2017 इण्डियन एकाख लिया है एवं तदनुसार ये वित्तीय परिणाम व	(फ० ल समापत तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक 31.03.2019 (आंकेसित) (ड 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 (400.00 (47.77) 0.0030 0.0030 0.0030	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंकेबित) 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69	<ul> <li>के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित 1 गिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूति हेटीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वान्ते सुणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत के डीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीत जो कुछ भी वहाँ हैं'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरखित मू ख्राणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अवत सम्पत्ति का जिल्ले हैं'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरखित मू ख्राणधारक: में. राया बकाया गरिंग कि बीर प्रदे के बकाये की वसूली के लिये ई-नीत के कुछ कि तथा गारन्टरों का नाम एवं गिरवी रखी गई अवत सम्पत्ति का जिल प्रति का नाम गरंग पता, तिथि के साथ बकाया गरिंग कि का पर खिक्री की जायेगी। आरखित मू खरेहर औमती कबीर भट्ट पुत्र ग्रांत रवागी/भाटींगैजर का नाम क्ये के हरका और कि की मुद्दे पत्ती मई अवत सम्पत्ति का सम्पत्र इपाधारक: में. रात माइको प्राति, औं कबीर भट्ट पुत्र औ राम से विदित आवासीय मंद्र स्वारा करोड़ वालिस लाख छतीय प्लॉट ने. यू-139, सेकटर-ए. एरिया माम 444 हकार एक सौड ज्याति तथा पर देती रात करोड वालिस लाख छतीय प्लॉट ने. यू-139, सेकटर-ए. एरिया माम 444 हकार एक सौ डन्यासो तथा पैसे चौती क वर्य भट्ट पुत्र औ प्रता नं. 61/4 एवं मात्र) तथा करोड वालिस लाख छतीय प्लॉट ने. यू-139, सेकटर-ए. एरिया माम 444 हकार एक सौड ज्याति क काम के दियि तक आगे का 5, एरिया: 444 वर्य आईर आखासीय क्रिय ख्वा आत करवी राद्र (यथम रात), खरारा नं. 61/4 एवं मात्र) तथा द्वार राठे हु पुत्र ए एस भट्ट पता: 719 ए में भीन फिल्ह्स' के नाम से विदित आवासीय क्रिय कि साम राखी खीर क आगे का 5, एरिया: 444 वर्य आईर त्य द्वार तथा ही दिल्ली-110019 7.2.2020 को रु किला फरीदाबाद की राजस्व स्पत्व ते ता नई ही विव क्रिय हु न्या प्रत्य ही तथा सिद है, 11 बर 16875866.20/- (रुपये एक करोइ में आवासीय मकान: प्लॉट तं. 2678, युपन अड दिक्त का पा क लाल एवं लागतों) 5, एरिया: 444 वर्या या हुरा खडर, पुत्र ने ती/4, एवं तिथ क का जा का खाल खता जो 5, परिया की प्रता खडर, पुत्र औं तवतीत कुमार खडर, प्रता कर सौ कई खालि के कॉरके कर, एरिया स्व की प्रत्य है, 11 बर 16875866.20/- (रुपये एक करोइ में आं कि क्रा के प्रत खडर, पुत्र अतीत क का प्रत खात्र भट्ट प्र ती</li></ul>	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इस भौतिक कब्जा किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरस्थ्रित मूल्य र राशि भुगतान (ईएमडी) श्रण की तिथि एवं रम्मय क. 89,00,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- ठ. 5,90,000/- ठ. 5,90,00/- ठ. 5	वों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जमा करने के खाता नं. तथा ईएफएस कोड आईएफएस कोड NB0008220 खाता नं. 203020000017 उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोड NB0008220	(कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उद्घार साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013("अधिनि यूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलेंट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तर को अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेंट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलेंट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है । ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी । ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेंट प्रप् के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं । ख वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसर्ट हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलेट प्रपन्न या ई वोटिंग डारा उक्त सत्तक्षरित पोस्टल बैलेट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलेट प्रपन्न या ई वोटिंग डारा उक्त सत्तक्ष्यों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर की जाये है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लि मतदान नहीं कर सकते हैं तथा यदि कोई स गया मतदान अवेध माना जायेगा। www.sirshadilal.com स्टॉक एक्सबेंज नेशनल सिक्युरिटीव डिपाजिटरी लिमिटेड क ई वोटिंग निर्वेशों के लिए सदस्यों से अनुरोध ई वोटिंग से सम्बन्धित किसी प्ररनों / स्व छाडनलोड खंड में उपलब्ध 'सतस्यो के सिन्ट के लि 'ई वोटिंग यूजर मेन्युअल' देखें अथव विनिर्दिष्ट ई मेल आईडी evoling( + 91 2224994545 पर या श्री अजय कुमा- दिल्ली 110001 ई मेल आइ0डी cs@siss सम्पर्क करें ।	मतमप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एलदड़ास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रणीडी आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जारी करने रणीडी आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जारी करने रा तथा पोस्टल बैलैट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत प्रदुतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट प्रूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपन्नों /ई वीटिंगं डास) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हों. वे डुप्सिकेट पोस्टल बैलैट प्रपन्न प्राप्त करने हे हैं। व) यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रयन्न प्राप्त करने हे हैं। वो यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रयन्न प्राप्त करने हे हैं। वो पोस्टल बैलैट प्रयत्न के दी गई यूजर नाम तथा ८20 के 5.00 बजो शाम (आईएसटी) तक प्रर्यक्षेक के पास स्वरत्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रयत्न वेध नहीं होगा। मौतिक कत तिथि के बाद मतवान कर सकते हैं। वो विधियत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजो शाम (आईएसटी) तक प्रयंवेक के पास स्वरत्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रयत्न वेध नहीं की जायेगी। छ) तिथि अर्थात 10 02 2020 को कम्पनी के सदस्य के नाम येगी 1 ज) यदि कोई व्यक्ति कट आफ तिथि को सदस्यां के नाम येगी 1 ज) यदि कोई व्यक्ति कट आफ तिथि को सदस्यां के नाम येगी भा जे. यदि कोई व्यक्ति कट आफ तिथि को सदस्यां के साध को वेबसाइट www.bseindia.com के साध ही साध की वेबसाइट www.bseindia.com के साध ही साध की वेबसाइट www.bseindia.com के साध ही साध के वेबसाइट www.bseindia.com के साध ही साध को वेबसाइट क्रा के शिथ ने वे निर्येश को देखें तथा मस्प्याओ के लिए सदस्य www.evoling.nsdl.com के तो Frequently Asked Question (FAQ's) तथा सदस्यां वा टोल फी नं0 1800 222 990 कॉल करें या एनऐडीएल से @nsdl.co.in या टेलीफोन न 91 22249994600 र जैन कर्मपनी संबिव, 4ए, इंसालय, 15 बाराखम्बा सेड, नई shadilal.com कोन नं0 011 23316409, 23310414 पर
ता ची था म में एक सरका के को ती भा में में ये का लया के को ती में दिया के को ती में ती की ती भा में में ये का लया के को ती में ती में ती की ता में दिया के को ती में ती में ती की ता में ती की की ती में ती की की ती में ती की ती में ती की की ती में ती की ती में ती की की ती में ती की ती में ती की ती में ती की की ती में ती की ती म	विवरण संचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(डानि) एवं अन्य यापक आय इक्वीटी शेयर पूँजी रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जेसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया) प्रति शेयर आय (सम मूल्य रू० 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल: टप्पणी: सेबी (सूझी ओब्लीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आ दिसम्बर, 2019 को एपरोक्त समाप्त तिमा प्ररिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एकस्टे कम्पनी ने 1 अप्रैल, 2017 इण्डियन एकाछ लिया है एवं लदनुसार ये वित्तीय परिणाम व अत्तर्गत साथ में पटित प्रासांगिक नियमों के	(फ० ल समापत तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आकेसित) (अ 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 (47.77) 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 वेनियमन, 2015 व एडद्धरित अनअ किया गया। ("आईएनडी एएप एवं अन्य एकाट	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके बित) 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋग्णधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित 1 गिरवी/चार्ण्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूति क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी दाज ऋगणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत केडीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरंक्षित मू राता, तिथि के साथ ककाया राशा निरती रखी गई अवल सम्पति का सम्पत्त कि स्वामेत्क तथा गारन्टरों का मार वार्थ निरती रखी गई अवल सम्पति का सम्पत्ति का प्रता, तिथि के साथ ककाया राशा निरती रखी गई अवल सम्पति का सम्पत्ति कि साथ ककाया राशा निरती रखी गई अवल सम्पति का निरती प्रति की की लाये है'' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरंक्षित मू प्रता, तिथि के साथ ककाया राशा निरती रखी गई अवल सम्पति का सम्पत्न कि साथ ककाया राशा निरती रखी गई अवल सम्पति का तमे कोहर निरत औं कबीर भट्ट पुत्र औ एएस भट्ट के खामित्व तिदेशका औमती कबीर भट्ट पुत्र और दाना कवीर भट्ट पुत्र औ पत्ती ज्योति भट्ट पत्ती काबीर भट्ट पुत्र औ पत्ती ज्योति भट्ट पत्र के स्वामेल का को निर एएस स्व को त्या रीत्र त्य तरीत करीति भट्ट पत्र बीना करी भट्ट पुत्र तथा स्वरा के त्यात स्वात्त भट्ट पुत्र आप तो जाते ति भट्ट पत्र के त्याते के साथ कावातीय भट्ट प्रत औत जीति भट्ट पत्ती कबीर भट्ट पुत्र औ वत्तत स्वरा स्वर्थ ही, 11 बरे दिशक तो त्रीति भट्ट पत्ती कि कीर भट्ट पुत्र भी काता तत्र तथा के तथा पत्र तथा कती जातति भट्ट पुत्र मु न्व त्य करेड वालिर लाख छतीत प्लार ने पुत्त त्र तथा स्वर है, 11 बरे दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकाः प्लॉट तं. 2678, पुराम मार 444 हजाय एक तरोड वालिर लाख छतीत पत्र यहुत (प्रय तता), खरा तं.61/4 एव मात्र तथा सुवा को विधि तक आगे का 5, एररिया स्वर की ताल दी प्रद आतील कि विदा आवासीय क्र वाल स्वर हित हो प्रत है, 11 बरे 16875586.20/- (रुपये एक करोइ में आवासीय मकाः प्लॉट सं त. 61/4, एव दिल्लीती एवं ये के का मा तथा प्रत लातो के प्रा तर दुर (दुश्र तल), खरा नं.61/4, एव तिथ तक आगे का ब्या पत्र लागतों) के प्र का कार मात्र वी करित हर, परिय है, आ वत्ती वर्छ आगे का ब्या एवं लागतों 5, एरिया तथा, खरा स, रिया है, 11 कर विडर छत्त मा तथा चुं लागतों 5, एरिया तर, दुश्र स्व तर, दिजन प्र त	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे इस भौतिक कब्जा किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरस्त्रित मूल्य र रात्रि भुगतान (ईएमडी) श्रण की तिथि एवं रम्मय अर्थ के प्रवी, से 4.00 बजे अप. हर 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 8,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- क. 3,90,000/- हर 3,90,000/- हर 3,90,000/- क. 3,90,000/- हर 3,90,000	वों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जमा करने के खाता नं. तथा ईएफएस कोड आईएफएस कोड NB0008220 खाता नं. 203020000017 उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोड NB0008220	(कंपनी अधिनियम (कंपनी अधिनियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उदघात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013('अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलैंट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तर को अनुसति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलैंट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेश्वक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलैट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित ब प्रेणण पूरा कर लिया है। ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी। ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलैट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं। ख वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसर्ट हस्ताक्षरित पोस्टल बैलैट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलैट प्रपन्न या ई वोटिंग द्वारा छक् सत्तर्थों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत रोयरों के प्रदत मूल्य पर की जाय है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लि मतदान नही कर सकते हैं तथा यदि कोई स गया मतदान अवैध माना जायेगा। www.sirshadilal.com स्टॉक एक्सचैंज नैशनल सिक्युस्टिव डिपाजिटरी लिमिटेड की ई वोटिंग निर्वेशों के लिए सदस्यों से अनुरोध ई वोटिंग से सम्बन्धित किसी प्रस्तों / स्व	मतमप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद डास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीड़ी आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औसीडी जारी करने रजीड़ी आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औसीडी जारी करने रेट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) डारा पारित किये जाने 1 तथा पोरटल बैलैंट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिय 1 (सवस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत प्रदुतियों में व्यक्सायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोरटल बैलैंट प्रुवना का ते अवधि (पोरटल बैलैंट प्रपत्रों / ई वोटिंग ं डारा) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप. (आईएसटी) में बंद पत्र प्रापत नही हों. वे डुप्सिकेट पोरटल बैलैंट प्रपत्र प्राप्त करने हे हैं। वो यदि कोई सदस्य पोरटल बैलैंट प्रपत्र प्राप्त करने हे हैं। वो यदि कोई सदस्य पोरटल बैलैंट प्रयत्र प्राप्त करने हो हैं। वो यदि कोई सदस्य पोरटल बैलैंट प्रयत्र प्राप्त करना स हो अवधि (फारटल बैलैंट प्रयत्र मे दी गई यूजर नाम तथा 8) यदि कोई सदस्य ई वोटिंग डारा मतवान करना चाहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। चो विधिवत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजी शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास स्तरत्यों से प्राप्त पोरटल बैलैंट प्रयत्र वेध नही होगा। मोतिक कत तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही ही जायेगी। छ) तिथि अर्थात 10 02 2020 को कम्पनी की सवरस्य के नाम येगी 1 ज) यदि कोई व्यक्ति कट आफ तिथि को सदस्य नही तेयदे देखें । डो सदस्य खाक तथा ई वोटिंग दोनो पद्धति मे तत्रय दोनों पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक डाहा किया य) पोस्टल बैलैट सूचना कस्पाई की खित्य के नाम देती वेबसाइंट www.bseindia.com के साथ ही साथ की वेबसाइंट www.bseindia.com के साथ ही साथ की वेबसाइंट www.bseindia.com के साथ ही साथ की वेबसाइंट www.bseindia.com के साथ ही तथा कर निष्य फो ने 1800 222 990 कॉल करें या एनऐडीएल से @Insdl.co.in या टेलीफोन नं 91 22249994600 र जैन कम्पनी संचिव. 4ए. इंसालय.15 बाराखम्बा सेड. नई shadilal.com फोन नं0 011 23316409, 23310414 पर
आ चा आ म म म एक का स्व 3 25 ती म की ती ?? 11 में में से से ति की की लोग ती ?? 11 में में से से ति की की लोग ती ?? 11 में में से से ति की की लोग ती ??	विवरण संचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(झनि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी) कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (झनि) (असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (झनि) (असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य यापक आय इक्वीटी शेयर पूँजी रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया) प्रति शेयर आय (सम मूल्य रू० 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल: <b>प्रणागि</b> सेवी (सूझी ओब्सीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आ दिसम्बर, 2019 को उपरोक्त समाप्त तिमा प्ररिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एक्सचे कम्पनी ने 1 अप्रैल. 2017 इण्डियन एकाख लिया है एवं तदनुसार ये वित्तीय परिणाम व	(फ० ल समापत तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (1.29)	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आकेसित) (अ 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 (47.77) 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 वेनियमन, 2015 व एडद्धरित अनअ किया गया। ("आईएनडी एएप एवं अन्य एकाट	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके बित) 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69	<ul> <li>के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से उद्दणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित प्रींगिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत केढीटर के प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी द्वान्त कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचाररहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरर्रिक्षत मूणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत केढीटर के बकाये की वसूल्ती के लिये ई-नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचाररहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरर्रिक्षत मू प्रसा, हिथि के सध्य बकाया राशि</li> <li>मिरवी रखी गई उग्रत का नम एवं प्रता, हिथि के सध्य बकाया राशि</li> <li>मिरवी रखी गई उग्रत स्वा स्थाति का सिर्म्याते का तिकरण तथा स्वमी/मार्टगैजर का नम</li> <li>मिरवी क साथ बकाया राशि</li> <li>मिरवी रखी गई उग्रत स्वा मा स्था कि का साथ का का स्वापति का तिरिक्षक: मैं तत माइको प्रा.लि. श्री कबीर भट्ट पुत्र श्री के नम से बिदित आवासीय मह, श्रीमती कबीर भट्ट पुत्र एएस. में 'ग्रीन फिल्दुस' के नम से बिदित आवासीय मह, श्रीमती कबीर भट्ट पुत्र एपस. मुं 'ग्रीन फिल्दुस' के नम से बिदित आवासीय मह, श्रीमती कवीत कर सुप्र पुत्र करीं कर मा से विदित आवासीय मह, श्रीमती कवीत का स्था खन्नी कि साथ स्वाक्षी का तांट ने. यू-139, सेकट-ए एरिया माम 444 हलत र एक सौ उन्यासी तवा मैं से बींदीस वर्ग याईस (प्रथम तल), खरा नं. 61/4 एव मात्र) तथा दुरात स्वा की जाद सु प्रथा स्वर का र एक सौ उन्यासी तवा में साईस (प्रथम तल), खरा नं. 61/4 एव मात्र) तथा दुरात कर करो का लोग के प्रय ख्वाता के प्रय ख्वाता तथा भात्र) हिथि तक आगे का प्र एक करोड में आवासीय मकान- प्लॉट नं. 2678, पुरान 144 कां साईस ख्वाल एवं तरातों</li> <li>क्रिय एक करोड में आवासीय मकान- प्रतार ख्वाजा, तहरील एव मात्र) तथा सु य सु र ता: गांव सी कां सि का याईस (दुस्स तन), खरा नं. 61/4 एव मात्र) हिथा है, 11 बरे 16875586.20/- (रुपये एक करोड में आवासीय मकान- प्रतार वं तथा है, 11 बरे 16875586.20/- (रुपये एक करोड में आवासीय मकान- र्रार कर अत्र नही कर्वार के प्रय ख्वर त्या याईस (दुस्स तन), खरा, ह)/4, एव 5, एरिया स्व मो का खाज ख्वान के साय खता हो कर साय ख्वर का या खता के साज ख्वा प्रा.त) के प्रर, रातामहिर वाली गली के पार, रठार, हो त्र कि करा खडर, प्र न वती कुमार खडर, प्र न ख कर</li></ul>	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः         किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है,         तिश्मी तिथि 13.3.2020 को ***         मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान         म्पति का आरश्चित मूल्य र राशि भुगतान (ईएमडी)         स्वांत का आरश्चित मूल्य त्र 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 3,90,000/- रु. 3,90,000/-	वों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जमा करने के खाता नं. तथा ईएफएस कोड आईएफएस कोड NB0008220 खाता नं. 203020000017 उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोड NB0008220	कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा उदघार साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013("अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बेलेंट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस को अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बेलेंट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेश्वक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलेंट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है । ख) मतदान की 12 02 2020 (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी । ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बेलेंट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं । ख वे 12 03 2020 5:00 बजे अप (आईएसर्ट हस्तक्षरित पोस्टल बैलेट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलेट प्रपन्न या ई वोटिंग ं डारा उक्त सत्तक्षरित पोस्टल बैलेट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बेलेंट प्रपन्न या ई वोटिंग ं डारा उक्त सत्तक्ष रेत पोस्टल बैलेट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बेलेंट प्रपन्न या ई वोटिंग ं डारा उक्त सत्तक्ष रेत पोस्टल बैलेट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये क्था उक्त तिथि के बाद पोस्टल बेलेंट प्रपन्न या ई वोटिंग ं डारा उक्त सत्तक्ष रेत पोस्टल बैलेट प्रपन्न या इ क्या यदि कोई स गया मतदान औद्य माना जायेगा। www.sirshadilal.com स्टॉक एक्सचैंज नैशनल सिक्युस्टिवि डिपाजिटरी लिमिटेड की ई वोटिंग निर्वेशों के लिए सदस्यों के लि ई वोटिंग निर्वेशों के लिए सदस्यों के लि ई वोटिंग निर्वेशों के लि एस रस्थों के लि ई वोटिंग से सम्बन्धित किसी प्रस्तों / स्त डाडनलोड खंड में उपलक्ष 'स रास्तों के लि क ति "ई वोटिंग यूजर मेन्युअल" देखें अथव विनिर्दिष्ट ई मेल आईडी evoling( + 91 2224994545 पर या जी अजय कुमा दिल्ली 110001 ई मेल आइ0डी 05@डाड सम्पर्क करें । पोस्टल बेलैट परिणाम की घोषणा शुक्ल वार ग जायेगी तथा स्टाक एक्सचैंज (बीएसई)) को भ	मतापन्न की सूचना त. 2013 की धारा 116 के अधीन) 2014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्वास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जाशि करने 1ट / इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) व्वारा पारित किये जाने 1 तथा पोस्टल बैलैट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिय 4 (सदस्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट पूचना का ते अवधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिंग वास) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप (आईएसटी) में बंद पत्र प्राप्त नही हों. वे डुस्तिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने 1 हैं। घो यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलैट प्रपत्र माप्त करते हैं इच्छुक हों, वे पोस्टल बैलैट प्रपत्र मे दी गई युजर नाम तथा 8) यदि कोई सदस्य ई वोटिंग वात्ता नक रना चाहतें हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। चो विधिवत पूर्ण एव 020 के 5.00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रपत्र वेच नही होगा। भौतिक कत तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छ) तथि अर्थात 16 02 2020 को कम्पनी के सदस्यों के नाम येगी 1 ज) यदि कोई च्याकेत कट आफ तिथि को सदस्य नही लेये देखें । डा) सदस्य डाक तथा ई वोटिंग वोनो पद्धति मे तत्रस्य वोनों पद्धतियों से मतदान करता हैं तो डाक व्वास किय था पोस्टल बैलैट सूचना कस्पर्न की वेबसाईट की वेबसाइट www.bseindia.com के साथ ही साथ की वेबसाइट www.bseindia.com के साथ ही ा स्व नि पोस्टल बैलैट सूचना में दिये गये निर्देशों को तेखे तथा मस्पयाओ के लिए सदस्य www.evoling.nsdl.com के तये Frequently Asked Question (FAQ's) तथा सदस्यों या टोल फी नं0 1800 222 990 कॉल करें या एनऐडीएल से (@nsdl.co.in या टेलीफोन नं 91 22249994600 र जैन करम्पनी सचिव, 4ए. इंसालय, 15 बाराखम्बा सेड, नई rshadilal.com फोन नं0 011 23316409, 23310414 पर 13 03 2020 को की जायेगी । इन परिणामों को कन्पनी की ता पोस्टल बैलैट परिणमों की घोषणा विज्ञापन व्रारा भी की मी सूचित की जायेगी ।
सो आपतमे सकासः क्रांगिकी ता प्रकारी भाषे में से सलम के कनों सी - इंको : जा से ड - ता ज	<ul> <li>विवरण</li> <li>संचालन से कुल आय</li> <li>अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी)</li> <li>कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(डानि) एवं अन्य यापक आय</li> <li>इक्वीटी शेयर पूँजी</li> <li>रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)</li> <li>प्रति शेयर आय (सम मूल्य रूठ 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल:</li> <li>रच्पगी:</li> <li>सेबी (सूझी ओब्सीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आ दिसम्बर, 2019 को एपरोक्त समाप्त तिमा प्ररिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एकसचे कम्पनी ने 1 अप्रैल. 2017 इण्डियन एकाछ लिया है एवं लदनुसार ये वित्तीय परिणाम व अतर्गत साथ में पटित प्रासांगिक नियमों के एएस 34 "अंतरिम वित्तीय रिर्पोटिंग" मान्यर सिंझान्तों के अनुसार तैयार किये गये।</li> </ul>	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (1.29	लाखों में. ईपीएस वार्षिक <b>31.03.2019</b> (आकेसित) (अ 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 (400.00 (47.77) 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 वेनियमन, 2015 व एडद्धरित अनअ किया गया। ("आईएनडी एएप एवं अन्य एकाट	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके बित) 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 400.00 -48.64 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, २००२         एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित 1         गिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत केडीटर के प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी दाग् ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत केडीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपवार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरर्थित म् ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं पता, तिथि के साथ बकाव्य राणि       गिरवी रखी गई अदात सम्पत्ति का मिरवी रखी गई अदात सम्पत्ति का पता, तिथि के साथ बकाव्य राणि       गिरवी रखी गई अदात सम्पत्ति का मिरवी रखी गई अदात सम्पत्ति का मिरवी के साथ बकाव्य राणि       सम्प किल्लण तथा स्वार्थात्रि का नाम किल्लण तथा स्वार्थात्र का नाम किल्ला तथा नवा राशि, औं कबीर भट्ट, पुत्र औं एर का नाम किल्ला तथा पह, त्रीपती कबीर भट, पुत्र एएस. में भीन फिल्इस' के नाम रे विदित आवासीय भट, त्रीपती को के ह, पत्नी कबीर भट, कॉलोनी के प्राप्त सम्पत्त का तहरतील एव पता: 718/722, बी-छ, नेहरू फंस, नई जिंता फरीदाबाद की राजरव सम्पदा में स्वित दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकान: प्लॉट नं. 2678, पुरान (रुपये वार करोड चालिस, लाख छतीस प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए, एरिया माम 444 हकार एक तौ बन्यासी तथा पैसे बौरीस वर्ग याईस (प्रथम तल), खरात नं. 61/4 एव मात्र) तथा बुगतान की तिथि तक आगे का 5, एरिया स्वर्थ का जाइत्य ब्वाल एवं लागतों         ऋणवारक: मै. के बी एण्टयप्राइजेज प्रॉप, औं कबीर भट्ट, पुत्र औं एरस. मट्ट के खासिल कहीर एक ती हला पत्र तथा रात्र को कॉलीनी ने प्राप्त प्रया ख्वाजा, तहसील एव दिव्ली-110019 7.2.2020 को ह, जिला फरीवाल की अटर पुराया माम 444 छियाती एवं येसे खेस मात्र वथा मुगतान की तर्गे राहेस (दुसरा तल), खरारा नं. 61/4, एव तिथि तक आगे का व्याव एवं लागतों) 5, एरिया स्वर्य स्वर्य, प्रति नती खुमार संजय खट्टर, पुत्र नवतीत कुमार खटुर, पत्रा खट्टर से खाती पत्ती स्वरिय, हिल्ते प्रांत को के पात, एरएरव 1, को 1 1,51,07,896.76/- (रुपये एक करोइ एं आधासीय मकान: सॉप नं 9 एरिया माप 220 वर्ग फरीदाबाद 7.2.2020 को र परे खो आत तो भार द	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः         किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे प्रारा भौतिक कब्जा किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>++</sup> मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान         म्पति का आरश्चित मूल्य र रात्रि भुगतान (ईएमडी) क्र ड9,00,000/- इ. 8,90,000/- इ. 8,90,000/- इ. 8,90,000/- के 8,90,000/- के 8,90,000/- के 8,90,000/- के 8,90,000/- के 3,90,000/- के 3,90,000/- के 3,90,000/- के 3,90,000/- के 3,90,000/- के 3,90,000/- के 3,90,000/- के 3,90,000/- के 3,90,000/- ठ 3,90,000/-	वों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जमा करने के खाता नं. तथा ईएफएस कोड आईएफएस कोड NB0008220 खाता नं. 203020000017 उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोड NB0008220	(कंपनी अधितियम (कंपनी अधितियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा डदघार साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013("अधिनि पूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलेट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने ओर तस को अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेववाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेश्वक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलेट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है । ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी । ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेंट प्रप् के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं । उ वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसर्ट हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलेट प्रपन्न या ई वोटिंग डास डक सं पंजी कृत शेयरों के प्रदत मूल्य पर की जाये है. वे इस सूचना को कंवल जानकारी के लि मतदान नहीं कर सकते हैं तथा यदि कोई स गया मतदान अवेध माना जायेगा । www.sirshadilal.com स्टॉक एक्सचेंज नेशनल सिक्युस्टिवि डिपाजिटरी लिमिटेड की ई वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्यों से अनुरोध ई वोटिंग से सम्बन्धित किसी प्रश्नो / सन् डाडनलोड खंड में उपलब्ध 'सवस्यों के लि के लि 'ई वोटिंग यूजर मैन्युअल' देखें अथव विनिर्दिष्ट ई मेल आईडी evoling( + 91 2224994545 पर या श्री अजय कुमान दिल्ली 110091 ई मेल आइउडी 05@डाड सम्पर्क करें । पोस्टल बैलैट परिणाम की घोषणा शुक्रवार 1 पंजीकृत कार्यालय में प्रवर्शित किया जायेगा जायेगी तथा स्टाक एक्सचैंज (बीएसई) को न	मतमप्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 2014 (नियमायली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिमूति और टन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदड़ार सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रणीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जारी करने रेट / इलेक्ट्रानिक वोटिंग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने त तथा पोरटल बैलैंट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय (सवरप्यता संख्या 29911 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यक्सायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोरटल बैलेट सूचना का ते अवछि (पोरटल बैलेट प्रपत्रों / ई वोटिंग ढास) बुधवार था गुरुवार 12 03 2020 को 500 अप (आईएसटी) में बंद पत्र प्रायत नही हों वे डुस्लिकेट पोरटल बैलेट प्रपत्र प्राप्त करने हे हैं। व) यदि कोई सदस्य पोरटल बैलेट प्रपत्र प्राप्त करने हे हा थु यदि कोई सदस्य पोरटल बैलेट प्रपत्र प्राप्त करने हो हा थे पोरटल बैलेट प्रपत्र बेलेट प्रपत्र प्राप्त करने हो हो थे पोरटल बैलेट प्रयत्र वे ते गई युजर नाम तथा हो यदि कोई सदस्य ई वोटिंग डास मतवान करना चाहते हो टी)तक अपना मतदान कर सकते हैं। च) विधियत पूर्ण एव 2020 के 5.00 बजे झाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोरटल बैलेट प्रपत्र वेध नही होगा। भौतिक कत तिथि के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। छ) तिथि अर्थात 10 02 2020 को कम्पनी के सदस्य नही तये देखें । डा) सदरय डाक तथा ई वोटिंग दोनो पद्धति मे तत्र य तेनों पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक द्वारा किया य) पोस्टल बैलेट सूचना कर्सा ई वोटिंग दोने पद्धति मे तत्र य तेनों पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक द्वारा किया य) पोरटल बैलेट प्रचना में दिये गये निर्तेशों को तेखे तथा ममस्याओ के लिए सदस्य अफ्पर-राजीति करे सा एनऐडीएल से @nsdl.conin या टेलीफोन नं 91 22249994600 र जैन कम्पनी संचिव, 4ए, इंसालय, 15 बाराखम्या सेड, नई 'shadilal.com जेने लो जायेगी । इन परिणामों को कम्पनी के ता पोरटल बैलेट परिणमों की घोषणा विज्ञापन द्वारा भी की मा पोरटल बैलेट परिणमों की घोषणा विज्ञापन द्वारा भी की भी सूचित की जायेगी ।
1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2	<ul> <li>विवरण</li> <li>संचालन से कुल आय</li> <li>अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी)</li> <li>कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(डानि) एवं अन्य यापक आय</li> <li>इक्वीटी शेयर पूँजी</li> <li>रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)</li> <li>प्रति शेयर आय (सम मूल्य रूठ 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल:</li> <li>रच्पगी:</li> <li>सेबी (सूझी ओब्सीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आ दिसम्बर, 2019 को एपरोक्त समाप्त तिमा प्ररिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एकसचे कम्पनी ने 1 अप्रैल. 2017 इण्डियन एकाछ लिया है एवं लदनुसार ये वित्तीय परिणाम व अतर्गत साथ में पटित प्रासांगिक नियमों के एएस 34 "अंतरिम वित्तीय रिर्पोटिंग" मान्यर सिंझान्तों के अनुसार तैयार किये गये।</li> </ul>	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (1.29	लाखों में. ईपीएस वार्षिक 31.03.2019 (आंकेक्षित) (ड 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.1	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंके बित) 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 400.00 -48.64 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, २००२         एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित 1         गिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत केडीटर के प्रशिकृत अधिकृत अधिकारी दाग् ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत केडीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपचार-रहित आधार पर धिक्री की जायेगी। आरर्थित म् ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं पता, तिथि के साथ बकावा राशि       गिरवी रखी गई अदत सम्पत्ति का मिरवी रखी गई अदत सम्पत्ति का पता, तिथि के साथ बकावा राशि       गिरवी रखी गई अदत सम्पत्ति का मिरवी रखी गई अदत सम्पत्ति का मिरवी के साथ बकावा राशि       सम्प किराण तथा स्वामी/साटंगेजर का नाम किराण तथा स्वामी/साटंगेजर का नाम       गरे श्रिक्त किराण तथा स्वामी/साटंगेजर का नाम         ऋणधारक: मै. तन माइको प्रा.ति औ कबीर भट्ट पुत्र औ एएस.बट्ट के खामिल निरेशक: श्रीमती कबीर भट्ट पुत्र एएस. में भीन फिल्इस' के नाम रे विदित आवासीय भट्ठ और नरवेड चालिस लाख छवीस प्र्वांट नं. यु-139, सेक्टर-ए एरिंग माम 444         दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकान: प्लॉट नं. 2678, पुरान (रसये चार करोड़ चालिस लाख छवीस प्र्वांट नं. यू-139, सेकटर-ए एरिंग माम 444         इत्रावरिक: मौ के बी एण्टसाइजेज प्रॉप, औ कबीर भट्ट, पुत्र औ एएस.बट्ट के खामिल कबीर एक सरोड चराता राग9 ए में भीना कि साम सराय खवाजा, तडसील एव सिक्त-110019 7.2.2020 को रु. विलाफरीवाब की राजरव सम्पदा में स्वित है, 11 बरे 168755865.207 (रमये एक करोइ में आवासीय मकान: प्लॉट नं. 2678, पुरान अद्वार एवं सेसे बीस मान्न तथा सुगवान की वर्ग राईश (द्वसरा तल), खरा नं. 61/4, एव तिथि तक आगे का बाज एवं लागतों)         ऋणवारक: मै. प्रे खा होतानी के प्रांग सार खाडा, तही के प्रां, स्वती कि तिख स्व आगे की खाज खुमार खट्टर, पुत्र नवनीत कुमार खट्टर, पत्र को रातरिव, एरिया माप 220 वर्ग संरेवा खट्टर, टंंं, न्र नवनीत कुमार खट्टर, पत्र को रातरी ह पार, हरें, प्रां किंव क आगे का बाज एवं लागतों)<	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः         किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे प्रा भौतिक कब्जा किया गया है, तेलामी तिथि 13.3.2020 को '''' मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान म्पति का आरश्चित मूल्य इंएनडी र राग्नि भुगतान (ईएनडी) स्र ग्रि भुगतान (ईएनडी) स्र ग्र क्र ९,90,000/- क्र ९,90,000/- क्र ९,90,000/- क्र ९,90,000/- क्र ९,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- इ ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- क्र ३,90,000/- हारांडके या.00 बजे पूर्वा. से 4,00 बजे अप. वजे अप         को पूर्वा. से 1,00 बजे अप. ने आप. तक में	वों की बिक्री केडीटर के पास , की नीचे वर्णित जैसा है जहाँ है, । नीचे वर्णित हैः ते जमा करने के खाता नं. तथा ईएफएस कोड आईएफएस कोड NB0008220 खाता नं. 203020000017 उट बैंक बल्लभगढ आईएफएस कोड NB0008220	(कंपनी अधितियम (कंपनी अधितियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन वायित्व तथा डदघार साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013("अधिनि पूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलेट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने ओर तस को अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेववाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेश्वक नियुक्त किया गया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलेट प्रपत्रों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है । ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी । ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेंट प्रप् के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते लेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं । उ वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसर्ट हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलेट प्रपन्न या ई वोटिंग डास डक सं पंजी कृत शेयरों के प्रदत मूल्य पर की जाये है. वे इस सूचना को कंवल जानकारी के लि मतदान नहीं कर सकते हैं तथा यदि कोई स गया मतदान अवेध माना जायेगा । www.sirshadilal.com स्टॉक एक्सचेंज नेशनल सिक्युस्टिवि डिपाजिटरी लिमिटेड की ई वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्यों से अनुरोध ई वोटिंग से सम्बन्धित किसी प्रश्नो / सन् डाडनलोड खंड में उपलब्ध 'सवस्यों के लि के लि 'ई वोटिंग यूजर मैन्युअल' देखें अथव विनिर्दिष्ट ई मेल आईडी evoling( + 91 2224994545 पर या श्री अजय कुमान दिल्ली 110091 ई मेल आइउडी 05@डाड सम्पर्क करें । पोस्टल बैलैट परिणाम की घोषणा शुक्रवार 1 पंजीकृत कार्यालय में प्रवर्शित किया जायेगा जायेगी तथा स्टाक एक्सचैंज (बीएसई) को न	म सवस्त्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदढ़ास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रणीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जारी करने 12 / इलैक्ट्रानिक वोटिग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने 13 तथा पोरटल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय 14 (स्वरस्वता संख्या 29911 प्रैविटस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोरटल बैलैट सुचना का 14 अवधि (पोरटल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिंग द्वारा) बुधवार 20 त्रारात नही हों, वे दुस्तिकेट प्रेरटल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने 15 वर्ष प्रोरटल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिंग द्वारा) बुधवार 20 त्र प्राप्त नही हों, वे दुस्तिकेट पोरटल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने 15 वर्ष यो यदि कोई सदस्य पोरटल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने 15 वर्ष के वाद मतदान कर सकते हैं। च) विधिवत पूर्ण एव 20 के 5.00 बजे राम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोरटल बैलैट प्रयत्र वैध नही होगा। भौतिक तत्वरिथे के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगो। 19 16 तिथि के बाद मतदान का अन्मनी के सदस्या नही ततेये क्यां 18 0 22 2020 को क्यानी के सदस्या नही ततेये क्या हा सदर्य डाक तक्षा ई वोटिंग दोनो पद्धति में यत्र यते ते 10 02 2020 को क्यानी के सदस्या नही ततेये क्या हा सदर्य आज्फ रार्थ ई तोटिंग दोनो पद्धति में यत्र यो चे पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक द्वारा किय 21) पोरटल बैलैट सूचना में दिये गये निर्देशों को देखे तथा स्वर्य दोनों पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक हास किय 21) यो रटल बैलैट सूचना में दिये गये निर्देशों को देखे तथा स्वर्य हो ने प्रद्रतियों से मतदान करते हैं तो डाक द्वारा किय 21) यो रटल बैलैट सूचना में हिये गये निर्देशों को देखे तथा सदस्याई के पोरटल बैलैट सूचना में दिये गये निर्देशों को देखे तथा सत्याई ने वे सराईट अफ्फ्र 8000000000000000000000000000000000000
	<ul> <li>विवरण</li> <li>संचालन से कुल आय</li> <li>अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी)</li> <li>कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(डानि) एवं अन्य यापक आय</li> <li>इक्वीटी शेयर पूँजी</li> <li>रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)</li> <li>प्रति शेयर आय (सम मूल्य रूठ 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल:</li> <li>रच्पगी:</li> <li>सेबी (सूझी ओब्सीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आ दिसम्बर, 2019 को एपरोक्त समाप्त तिमा प्ररिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एकसचे कम्पनी ने 1 अप्रैल. 2017 इण्डियन एकाछ लिया है एवं लदनुसार ये वित्तीय परिणाम व अतर्गत साथ में पटित प्रासांगिक नियमों के एएस 34 "अंतरिम वित्तीय रिर्पोटिंग" मान्यर सिंझान्तों के अनुसार तैयार किये गये।</li> </ul>	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (1.29	लाखों में. ईपीएस वार्षिक 31.03.2019 (आंकेसित) (ड 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 (400.00 (47.77) 0.0030 (47.77) 0.0030 0.0030 वेनियमन, 2015 व उद्धरित अनर्थ किया गया। ("आईएनडी एप एवं अन्य एकाइ	समाप्त तिमाडी 31.12.2018 (अनअंकेबित) 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, २००२         एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गारन्टरों को सूचित 1         गिरवी/चार्न्ड नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत केडीटर के प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी दाग् ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत केडीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीत जो कुछ भी वहाँ है'' तथा उपवार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरर्थित म् ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं पता, तिथि के साथ बकाव्य राणि       गिरवी रखी गई अदात सम्पत्ति का मिरवी रखी गई अदात सम्पत्ति का पता, तिथि के साथ बकाव्य राणि       गिरवी रखी गई अदात सम्पत्ति का मिरवी रखी गई अदात सम्पत्ति का मिरवी के साथ बकाव्य राणि       सम्प किल्लण तथा स्वार्थात्रि का नाम किल्लण तथा स्वार्थात्र का नाम किल्ला तथा नवा राशि, औं कबीर भट्ट, पुत्र औं एर का नाम किल्ला तथा पह, त्रीपती कबीर भट, पुत्र एएस. में भीन फिल्इस' के नाम रे विदित आवासीय भट, त्रीपती को के ह, पत्नी कबीर भट, कॉलोनी के प्राप्त सम्पत्त का तहरतील एव पता: 718/722, बी-छ, नेहरू फंस, नई जिंता फरीदाबाद की राजरव सम्पदा में स्वित दिल्ली 7.2.2020 को रु. 44036179.34 में आवासीय मकान: प्लॉट नं. 2678, पुरान (रुपये वार करोड चालिस, लाख छतीस प्लॉट नं. यू-139, सेक्टर-ए, एरिया माम 444 हकार एक तौ बन्यासी तथा पैसे बौरीस वर्ग याईस (प्रथम तल), खरात नं. 61/4 एव मात्र) तथा बुगतान की तिथि तक आगे का 5, एरिया स्वर्थ का जाइत्य ब्वाल एवं लागतों         ऋणवारक: मै. के बी एण्टयप्राइजेज प्रॉप, औं कबीर भट्ट, पुत्र औं एरस. मट्ट के खासिल कहीर एक ती हला पत्र तथा रात्र को कॉलीनी ने प्राप्त प्रया ख्वाजा, तहसील एव दिव्ली-110019 7.2.2020 को ह, जिला फरीवाल की अटर पुराया माम 444 छियाती एवं येसे खेस मात्र वथा मुगतान की तर्गे राहेस (दुसरा तल), खरारा नं. 61/4, एव तिथि तक आगे का व्याव एवं लागतों) 5, एरिया स्वर्य स्वर्य, प्रति नती खुमार संजय खट्टर, पुत्र नवतीत कुमार खटुर, पत्रा खट्टर से खाती पत्ती स्वरिय, हिल्ते प्रांत को के पात, एरएरव 1, को 1 1,51,07,896.76/- (रुपये एक करोइ एं आधासीय मकान: सॉप नं 9 एरिया माप 220 वर्ग फरीदाबाद 7.2.2020 को र परे खो आत तो भार द	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः         किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे प्रारा भौतिक कब्जा किया गया है,         तिगमी तिथि 13.3.2020 को '''' मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान         म्पति का आरश्चित मूल्य र राप्ति भुगतान (ईएमडी)         श्रण की तिथि एवं रम्पय र राप्ति भुगतान (ईएमडी)         श्रण की तिथि एवं रम्पय के 9,00,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 3,90,000/- रु. 3,90	वों की बिक्री         केडीटर के पास         की नीचे वर्णित         जैसा है जहाँ है,         नीचे वर्णित हैः         वें जमा करने के खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         आईएफएस कोडः         NB0008220         खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         आईएफएस कोडः         NB0008220         खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         आईएफएस कोडः         NB0008220         खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         आईएफएस कोडः         NB0008220         खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         अईएफएस कोडः         NB0008220         खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         आईएफएफ कोडः         NB0008220	किमनी अधितियम (कंपनी अधितियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उदघात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013("अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बेतेंट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस को अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बेतेंट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेश्वक नियुक्त किया गाया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलेट प्रपत्नों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है । ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी । ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बेतेंट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते तेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं । ख वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसर्ट हस्ताक्षरित पोस्टल बेलेट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलेट प्रपन्न या ई वोटिंग डारा उक् सदस्यों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत शेयरों के प्रदत मूल्य पर की जाये है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लि मतदान अवैध माना जायेगा । www.siishadilal.com स्टॉक एक्सचेंज नेशनल सिक्युस्टिव डिपाजिटरी लिमिटेड की ई वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्यों से अनुरोध ई वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्यों के लिंग के लि "ई वोटिंग यूजर मैन्युअल" देखे अथव विनिर्दिष्ट ई मेल आईडी evoling( + 91 2224994545 पर या श्री अजय कुगम दिल्ली 110091 ई मेल आइ0डी 05@डांड सम्यर्क करें । पोस्टल बेतेंट परिणाम की घोषणा शुक्रवार 1 पंजीकृत कार्यालय में प्रवर्शित किया जायेगा जायेगी तथा स्टाक एक्स चेंज (बीएसई ) को भ पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ उक्त परिणामा व हो साथ नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी	म सवस्त्र की सूचना A. 2013 की धारा 110 के अधीन) 2014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के सियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदबास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के राजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जासे करने 27 इत्तैकट्रानिक वोटिग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने 1 तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय 1 तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय 1 तथा पोस्टल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय 14 (सवरस्ता संख्या 29911 प्रैविटस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलैट सूचना का 1 अधि (पोस्टल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिंग डाश) बुधवार था गुरुवार 12 08 2020 को 500 अप (आईएसटी) में वं पत्र प्राप्त नही हों, वे डुस्लिकेट पोस्टल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने 18 व) यदि कोई सदस्य धेरटल बैलैट प्रपत्र में ती गई युजार नाम तथा 8) यदि कोई सदस्य ई वोटिंग डाश मतवान करना चाहते हो 200 के 5.00 बजे शाम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास स्वर्क्यों से प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रपत्र वैध नहीं होगा। भौतिक कत तिथि के वाद मतवान की अनुमति नहीं दी जायेगी। छ) तिथि अर्थात 10 02 2020 को कप्रजनी के सदस्या ही स्वर्क्य दे में प्राप्त पोस्टल बैलैट प्रयत्र वैध नहीं होगा। भौतिक तत्विथ के वाद मतवान की अनुमति नहीं दी जायेगी। छ) तिथि अर्थात 10 02 2020 को कप्रजनी के सदस्या की वे बादाईट www.bseindia.com के साथ ही साथ की वे बासाईट www.bseindia.com के साथ ही साथ की वे बासाईट www.bseindia.com के साथ ही साथ की वे बाराईट www.bseindia.com के साथ ही साथ की वे पोस्टल बैलैट सूचना में दिये गये निर्देशों को देखें तथा सत्याई ने गे 1800 222 990 कॉल करें या एनऐडीएल से (@nsdl.co.in या टेलीफोन नं 91 22249994604 र जैन कम्पनी सचिव, 4ए. इसालय 15 बाराखम्या से ज् व ते ते वे प्रार्ड परिणमों की घोषणा विज्ञापन दारा भी की 11 पोस्टल बैलेट परिणमों की घोषणा विज्ञापन दारा भी की 11 पोस्टल बैलेट परिणमों की घोषणा विज्ञापन दारा भी की 13 03 2020 को की जायेगी। इन परिणमों को कम्पनी के 14 सिमिटल बी वे बराई अफ्फ.voting.nsdl.com पर भो 15 कि ये दत्व क
	<ul> <li>विवरण</li> <li>संचालन से कुल आय</li> <li>अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूरी)</li> <li>कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (डानि) (असाधारण मदों के बाद)</li> <li>अवधि के लिएकुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(डानि) एवं अन्य यापक आय</li> <li>इक्वीटी शेयर पूँजी</li> <li>रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)</li> <li>प्रति शेयर आय (सम मूल्य रूठ 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए) मूल: तरल:</li> <li>रच्पगी:</li> <li>सेबी (सूझी ओब्सीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आ दिसम्बर, 2019 को एपरोक्त समाप्त तिमा प्ररिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एकसचे कम्पनी ने 1 अप्रैल. 2017 इण्डियन एकाछ लिया है एवं लदनुसार ये वित्तीय परिणाम व अतर्गत साथ में पटित प्रासांगिक नियमों के एएस 34 "अंतरिम वित्तीय रिर्पोटिंग" मान्यर सिंझान्तों के अनुसार तैयार किये गये।</li> </ul>	(फ० ल समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (1.29	लाखों में. ईपीएस वार्षिक 31.03.2019 (आकेसित) ( 18.03 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 (400.00 (47.77) 0.0030 0.0030 (47.77) 0.0030 0.0030 वेनियमन, 2015 व एडइरित अनर्थ किया गया। ("आईएनडी एएप नेयम, 133 की प एवं अन्य एकाइ	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंकेबित) 3.14 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69	के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002         एतद्द्रारा आम जनता तथा जिशेष रूप से ऋणधारकों/एवं गार-टरों को सूचित प्री गिरवी/चार्न्ड नीचे वणित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत के डीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वा- ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत के डीटर के वकाये की वसूली के लिये ई-नीद जो कुछ भी वहाँ हैं '' तथा उपचार-रहित आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित म् ऋणधारक तथा गारन्टरों का नाम एवं मता, तिथि के साथ बकाया राशि         इषणधारक: मै. लन मादको प्राति, औं कबेर भट्ट पुत्र औ एएस.शह के त्वामिल तथि एक. श्रीसती कबीर भट्ट पुत्र ए.स. में 'ग्रीन फिल्हरा' के नाम ये बिदित आवासीय भट्ट शीसती नवीति भट्ट पत्नी कबीर भट्ट पुत्र शु. एस. तथा रा8/27,2, वी-छ, नेरल प्लेस, नई जिला फरीवाबाद की जलद सम्पत्न में स्थित हूं, 11 बरं दिलली 7.2.020 को रु. 4403c179,34 में आवासीय मकनः प्लॉट नं. 2678, युपन (रूपये वार करोड़ चालिस लाख छतीस प्लॉट नं. नू-139, सेक्टर-ए, एरिंगा माप 444 हजार एक सी बन्यासो तथा पैसे वीतीस वर्ग याईस (प्रथम तल), खरा नं. 61/4 एव मात्र) तथा क्रबी हिंदि का आगे के इ. एरिंगाः 444 वर्ग याईस व्हणवारकः मै. के बी एण्टरप्राईनेज प्राप, औं कबीर भट्ट पुत्र औ एएस.शह के त्वामिल कबीर भट्ट पुत्र प्रथ मह पता: 719 ए में 'ग्रीन फिल्हर' के नाम से विदित आवासीय कबात एक सी बन्यासो तथा पैसे वीतीस वर्ग याईस (प्रथम तल), खरा नं. 61/4 एव मात्र) तथा कु बी एण्टरप्राईनेज प्राप, श्रे कर्कों के बी एण्टरप्राईनेज प्राप, श्रे एरिंगाः 444 वर्ग याईस व्हणवारकः में. के बी एण्टरप्रादेनेज प्राप, श्रे एरिंगाः 444 वर्ग याईस व्हणवारकः से. के बी एण्टरप्रादेनेज प्राप, श्रे एरिंगाः 444 वर्ग याईस व्हणवारकः से. इ. ने बात यां वाताती २. एरिंया व्रथन करोता से आवासीय मकनः स्थार में. 2014, एव तिथि कक आगे का ब्याज एवं लागतो ३. एरिंया वती, खास, तराप न 1, 11 बंद तिविंय का आगे का ब्याज एवं लागतो २. एरिंय वाली गती के प्राप स्था प्रयत्त हा राय खडर, पुत्र नवनी कुमार खडर, पता आवासीय मकनः सॉप नं. 9 एरिंया 220 वर्ग करीदीखा कर आगे का ब्याज एवं लागतो)     को तितिय तं तथारा नीचे दारि इं-नीलामी के तिविंय: 1.510.7.896.76/- (रुयये एक करदेद एनमबाईटी फरोवाबा, लिंता- फरीदाबाद	के अंतर्गत अचल परिसम्पतिः         किया जाता है कि प्रतिभूत ब्रे प्रारा भौतिक कब्जा किया गया है,         तिगमी तिथि 13.3.2020 को '''' मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान         म्पति का आरश्चित मूल्य र राप्ति भुगतान (ईएमडी)         श्रण की तिथि एवं रम्पय र राप्ति भुगतान (ईएमडी)         श्रण की तिथि एवं रम्पय के 9,00,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 8,90,000/- रु. 3,90,000/- रु. 3,90	वों की बिक्री         केडीटर के पास         की नीचे वर्णित         जैसा है जहाँ है,         नीचे वर्णित हैः         वें जमा करने के खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         आईएफएस कोडः         NB0008220         खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         आईएफएस कोडः         NB0008220         खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         आईएफएस कोडः         NB0008220         खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         आईएफएस कोडः         NB0008220         खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         अईएफएस कोडः         NB0008220         खाता नं.         203020000017         उट बैंक बल्लभगढ़         आईएफएफ कोडः         NB0008220	किमनी अधितियम (कंपनी अधितियम कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली 20 विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उदघात साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013("अधिनि सूचित किया जाता है कि पोस्टल बेतेंट स निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और तस को अनुमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बेतेंट का प्रस्ताव है । स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग Ms. कविता वेदवाल कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेश्वक नियुक्त किया गाया है । सदस्यों को सूचित किया जाता है कि क) क पोस्टल बैलेट प्रपत्नों तथा स्व पता लिखित क प्रेणण पूरा कर लिया है । ख) मतदान की 12 02 2020. (आईएसटी) में शुरू होगी तथ होगी । ग) जिन सदस्यों को पोस्टल बेतेंट प्रप के लिए कम्पनी के पास आवेदन कर सकते तेकिन वे ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के इ पासवर्ड का प्रयोग कर ऐसा कर सकते हैं । ख वे 12 03 2020 5.00 बजे अप (आईएसर्ट हस्ताक्षरित पोस्टल बेलेट प्रपन्न 12 03 20 पहुँच जाना चाहिये तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलेट प्रपन्न या ई वोटिंग डारा उक् सदस्यों के मताधिकार की गणना कट आफ में पंजीकृत शेयरों के प्रदत मूल्य पर की जाये है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लि मतदान अवैध माना जायेगा । www.siishadilal.com स्टॉक एक्सचेंज नेशनल सिक्युस्टिव डिपाजिटरी लिमिटेड की ई वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्यों से अनुरोध ई वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्यों के लिंग के लि "ई वोटिंग यूजर मैन्युअल" देखे अथव विनिर्दिष्ट ई मेल आईडी evoling( + 91 2224994545 पर या श्री अजय कुगम दिल्ली 110091 ई मेल आइ0डी 05@डांड सम्यर्क करें । पोस्टल बेतेंट परिणाम की घोषणा शुक्रवार 1 पंजीकृत कार्यालय में प्रवर्शित किया जायेगा जायेगी तथा स्टाक एक्स चेंज (बीएसई ) को भ पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ उक्त परिणामा व हो साथ नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी	म सवस्त्र की सूचना त. 2013 की धारा 110 के अधीन) 014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और टन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के नियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदढ़ास सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के रणीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को ओसीडी जारी करने 12 / इलैक्ट्रानिक वोटिग (ई वोटिंग) द्वारा पारित किये जाने 13 तथा पोरटल बैलैट प्रकिया का पर्यवेक्षण करने के लिय 14 (स्वरस्वता संख्या 29911 प्रैविटस प्रमाण पत्र संख्या 21347) कम्पनी ने मंगलवार 11 02 2020 को स्वीकृत पद्धतियों में व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोरटल बैलैट सुचना का 14 अवधि (पोरटल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिंग द्वारा) बुधवार 20 त्रारात नही हों, वे दुस्तिकेट प्रेरटल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने 15 वर्ष प्रोरटल बैलैट प्रपत्रों / ई वोटिंग द्वारा) बुधवार 20 त्र प्राप्त नही हों, वे दुस्तिकेट पोरटल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने 15 वर्ष यो यदि कोई सदस्य पोरटल बैलैट प्रपत्र प्राप्त करने 15 वर्ष के वाद मतदान कर सकते हैं। च) विधिवत पूर्ण एव 20 के 5.00 बजे राम (आईएसटी) तक पर्यवेक्षक के पास सदस्यों से प्राप्त पोरटल बैलैट प्रयत्र वैध नही होगा। भौतिक तत्वरिथे के बाद मतदान की अनुमति नही दी जायेगो। 19 16 तिथि के बाद मतदान का अन्मनी के सदस्या नही ततेये क्यां 18 0 22 2020 को क्यानी के सदस्या नही ततेये क्या हा सदर्य डाक तक्षा ई वोटिंग दोनो पद्धति में यत्र यते ते 10 02 2020 को क्यानी के सदस्या नही ततेये क्या हा सदर्य आज्फ रार्थ ई तोटिंग दोनो पद्धति में यत्र यो चे पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक द्वारा किय 21) पोरटल बैलैट सूचना में दिये गये निर्देशों को देखे तथा स्वर्य दोनों पद्धतियों से मतदान करते हैं तो डाक हास किय 21) यो रटल बैलैट सूचना में दिये गये निर्देशों को देखे तथा स्वर्य हो ने प्रद्रतियों से मतदान करते हैं तो डाक द्वारा किय 21) यो रटल बैलैट सूचना में हिये गये निर्देशों को देखे तथा सदस्याई के पोरटल बैलैट सूचना में दिये गये निर्देशों को देखे तथा सत्याई ने वे सराईट अफ्फ्र 8000000000000000000000000000000000000

	ults filed with Stock Exchange under Regulaion 33 of SEI format of the quarterly financial results are available on th Company's website at www.uniofficeautomation.com. For Universal Office Automation Limite So Sunil Kumar Shrivastav Managing Direct	<ul> <li>ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती निविव कर्म डाउनलोड एवं अपलोड करने की तरीय समय</li> <li>निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेब का विवरण वेबसाईट http://eproc जा सकता है।</li> </ul>	
R PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO SECUR CULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DAT FOR THE IMMEDIATE ATTENTION OF THE	ED OCTOBER 10, 2016 ("SEBI CIRCULAR")	DIPR/C/738/2020	हरुता/- ( बीएल. भौरवा) अतिरिक्त मुख्य अभियंता, या.नि.वि. वृत अजमेर
DWILL HOUSING AND I ("Goodwill"/ "The Co Registered Office: 1/811 Pillayar Koll Street, Thoraipa) Tel: +91 9444038425 / 9444005357; Fax: NA; Er bsite: http://www.goodwillhousingandinvestmentslimited Corporate Identification Number: Le	ompany") kkam, Chennai- 600097, Tamii Nadu, India; mail. goodwillihousing@yahoo.co.m; d.com/; Contact Person; Mr. Somasundaram C. 55922TN1994PLC029166	PUBLIC (Regulation 14 of the Ins (Valuntary Liquida FOR THE ATTENTIO FENWAL IN	CHEDULE I FORM A ANNOUNCEMENT olvency and Bankruptcy Board of India than Process) Regulations, 2017) IN OF THE STAKEHOLDERS OF IDIA PRIVATE LIMITED
	ED ON BEHALF OF THE PROMOTER AND PROMOTE		
	TS LIMITED ("GOODWILL/ THE COMPANY") BY M	Contraction of the second second second	Ferwai India Private Limited
	BESAN UTHAMAN, ("HEREINAFTER COLLECTIVE	2 L di man anna anna 1 Company 1 Company 1	
신경수영 비행을 다섯 만나라 전 전 관련이 한 대답을 위한 것 같아요. 것 같아요. 것 같아요. 것 같아.	OF THE COMPANY TO PROVIDE EXIT OPTION TO TH	inconverter / recistured	Transity of conjugate passa, register of the relation, some
	REHOLDERS OF THE COMPANY OTHER THAN TH IR REFERRED TO AS "PUBLIC SHAREHOLDERS") C	E 4 Corporate identity Number of Corporate	U24305HR2007PTC040646
ACQUIRING UPTO 20,20,108 EQUITY SHARES ("OF PRICE") IN ACCORDANCE WITH THE SEBI CIRCULA h of Offer Letter, along with Form of Acceptance ("Form"	FER SHARES") HAVING FACE VALUE RS. 10/- EACH A	5 Address of the Registered Office and Principal Office (it any) of Corporate Perso	Principal office: 5th Ricor, A- Wing, Ashoka Ptaza, Pune- Nagar Rixad Survey No. 32/2, Vaceaon Steri
impleted on January 30, 2020.			Viman Nagur Pune-411014, Maharashtra
hedule for Exit Offer ening of Exit Offer Period F	ebruary 10, 2020	6 Equidation Commencement Date of Corporate Person	07.02.2020
	ebruary 14, 2020	7 Name, address, email address, telephone	Name: Dr. (h.c.) Adv. Manna Binan;
c Shareholders who wish to lender their Offer Shares in	the Exit Offer are requested to submit the duly filled in For- imited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") latest t	number and the registration number of the	Address: 24, Ganesh Chandra Avenue, Commerce House, Fourth Roor, Room No. 6, Kokata-700013, West Bengal, Email kt. fpl.liquidaton@gmail.com Telephone No.: 983:1099551 Registration No.: 983:1099551
44 40020700: Fax: +91 44 28460129:		8 Last date for submission of clams	06.03.2020
astor@cameoindia.com;		Notice is hereby given that the Ferris liquidation on 07.02.2020 (liquidation or	al India Private Limited has commenced voluntary
rson: Ms. Sreepriya.K hy queries regarding the Exit Offer, the Shareholders can t Office: 1/811 Pillayar Koil Street, Thoraipakkam, Chenina 14038425/9444005357; Fax: NA, Email: goodwillhous tp://www.goodwillhousingandinvestmentslimited.com/: C Offerors on behalf of Promoter G Sd/- SABESAN KN SOMASUNDAR/ 1, 2020	ing@yahoo.co.in; ontact Person: Mr. Somasundaram C roup of the Company Sd/-	The Stakeholders of Ferwal India Priva their claims, on or before 08.03.2020, to The financial creditors shall submit the stakeholders may submit the proof of cla Submission of false or misleading proof Sd/- Dr. (h.c.) Adv. Mamta Binani	It is a second s
💼 शाखा कार्यालय: बह	लभगढ़, हरियाणा-121004 इं-नीलामी	सर बादी	नाल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड
yndicateBack ई-मेल: br.8220@ (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम &(5) एवं रण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधि	300991, 2211710 syndicatebank.co.in ८(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पति नेयम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिन्न को सुचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के प	सीखाईएक पंजी. कार्यालय : 4ए, हंसा र्यो देन्साईट ती (कंपनी अधिनिय	51909DL1933PLC009509 तब. 15 बापालम्या प्रेस, नई दिस्सी110001 shadial.com फोन: 011-23316409 s www.sirshadilal.com क मतपन्न की सूचना म. 2013 की धारा 110 के अधीन)
चे वर्णित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के	अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की नीचे वॉ जलिये इं–नीलामी तिथि 13.3.2020 को <sup>11</sup> जैसा है जहाँ । आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान नीचे वर्णित	केम्पना (प्रबंध क्या प्रशासन)।नयमावला उ ) विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्द है, साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013("अधि है; सूचित किया जाता है कि पोस्टल बेलैट है: निदेशकों से असुरक्षित ऋण जुटाने और 1	2014 (नियमावली) के नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और गटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों के प्रेनियम") की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदड़ारा ' सूचना तिथि 11 02 2020 में विशिष्ट प्रस्तावों, कंपनी के तरजीही आधार पर कंपनी के प्रमोटरों को औसीडी जारी करने वैद्र / दवैक्टायिक वोटिंग /ई. वोटिंग) वास प्रावेद किये जाने

्रप्रतिवाद

रजिस्ट

दिनाकः-04.02.2020

www.readwhere.com

26

# **FINANCIAL EXPRESS**

			-							
Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies [Incorporation] Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one State / Union Territory to another Before the Central Government	PUBLIC NOTICE	PUBLIC NOTICE FORM INC-26 Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION	KE		TIVITY ERS LTD.	A-10 Centr Vidhyadha CIN: L2710		ankar Plaza, pur-302023 C030511	रांजाब नेशनल बैंग 💽 punjab national bank	Form No. INC-25
Northern Region	This is for notice of the general	In the matter of Companies Act, 2013, Section 13(4) of the Companies Act, 2013	Statement of Stan	falone Unauditer	d Financial Results				भरोसे का प्रतीक 1 the name you can BANK upon!	[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule	public that a political party is	and Rule 30 (5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014	-				acs except p	1	- Out of offerit raik, iv, Hakash beep building, outonalenciave, itadi salal,	Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office
(5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014	proposed to be registered by the name of Bharatiya Panchsheel Party	And	Partic	ilars		rier Ended	and the second second second	Ended Vear ended	New Delhi-110016   Email : cipc6368@pnb.co.in   Ph- 011-41616320	of the company from one state to another
AND In the matter of	(name of the party). The office of the	In the matter of AILOGIX SOFTWARE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED (CIN:				10.09.19 31.12.1 Unaudited (Unaudited)			(For immovable property) Whereas,	Before the Central Government Northern Region,
JAY THAKURJI MULTIMETALS PRIVATE LIMITED	party is located at B-71, Indira	072900DL2018PTC332637) having registered office at A1/68, Top Floor, Sector 8 Rohim Delhi	Total income from	operations (net)		683.79 1533.2			The undersigned being the Authorized Officer of Punjab National Bank, under the	In the matter of sub section (4) of Section 13
CIN:U74989CH2009PTC031598 having its registered office at House No.176/2,	Nagar, Raebareli (Uttar Pradesh). This party has submitted application	- 110085	Net Profit for the p Exceptional and/or			340.55 342.7	9 1053 70 8	53.02 1021.35	Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security	of Companies Act, 2013, and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies
Sector-41A, Chandigarh-160036Petitioner PUBLIC NOTICE	to the Election Commission of India.	Notice is hereby given that the Company proposes to make application under section 13	Net Profit for the p	ariod before Tax	(after stose	323.14 233.	H 663.67 5	10 23 1021 35	13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 21, 11, 2019, calling upon the Borrowers/ Guarantors M/s M/s	(Incorporation) Rules, 2014 AND
Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the	New Delhi for its registration as Political Party under Section 29A of	of the Companies Act, 2013 before the Hon'ble Regional Director, Northern Region Bench at	Exceptional and/o		enisw)	262.14 620.	000.07 5	106130	Juneja Coal Depot, Sh. Dev Juneja, Smt Divya Madani Allas Divya Madnani W/o Sh.	In the matter of Kosel Industries (India) Limited, CIN U29199DL2003PLC123577
Central Government under section 13 of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of	the representation of People Act,	Dethi seeking confirmation of alteration of the clause II of the Memorandum of Association of	Net Profit for the p Exceptional and/or			259 74 254.6	8 768.05 6	31.25 804.63	Jatin Madani alias Jitender Madnani, Sh. Jatin Madani Alias Jitender Madnani S/o Sh. Naryan Daas alia Narayan Dass Madnani to repay the amount mentioned in	having its registered office at First Floor. Florist. Omaxe Souare, Jasola District Centre New Deihi
alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed	1951- Names/address of the office	the Company in terms of Special Resolution	Total comprehensi	e income for the	period 262.24	259.74 254.1	8 768.04 6	29.75 802.64	4 the notice being Rs. 1,03.33,322.56 (Rupees One Crore Three lacs Thirty Three	- 110025 Petitionar
at the Extra Ordinary General Meeting held on Monday, 03rd day of February, 2020 to enable the	bearers of the Party are as follows : President/ Chairman : Rajbahadur	passed at its Extra-Ordinary General Meeting held on 10th February 2020 to enable the	Equity Share Cap		100.51	100.51 100.5	1 100.51	100.51 100.51	Thousand Three Hundred Twenty Two & paisa Fifty Six only) as on 31.10.2019 plus further interest & charges thereon at applicable /agreed rate, within 60 days from the	Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to
company to change its Registered Office from 'Union Territory of Chandigarh' to any place in	General Secretary/Secretary :	Petitioner Company to change its Registered Office from NCT of Delhi to the State of Madhya	(Face value per si			TRUCK CONT	100	in the second	date of receipt of the said notice.	the Central Government under section 13 of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of
the State of Punjab Any person whose interest is likely to be affected by	Sanjay Bharatiya	Pradesh. Any person whose interest is likely to be affected	Reserves (excludit as shown in the at			-	•	- 2236.24	The borrowers / Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/ Guarantors and the public in general that the undersigned	alteration of the Memorandum of Association of
the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal		by the proposed change of registered office of	the previous year			_	-	-	has taken the Symbolic Possession of the property owned by, Sh. Jatin Madani	the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting
(www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered	If any one has any objection to the registration of Bharatiya Panchsheel	the Company may deliver either on MCA21 portai (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form	Earnings Per Sha (of Rs, 10/- each)		Diluted 2.61	2.58 2.5	3 7.64	6.28 8.01	Alias Jitender Madnani S/o Sh. Naryan Daas alias Narayan Dass Madnani and Smt Divya Madani Alias Divya Madnani W/o Sh. Jatin Madani alias Jitender Madnani	held on Monday. 11th day of November, 2019 to enable the Company to change its Registered
post of his/her objections supported by an affidavit	Party (name of the proposed Party)	or cause to be delivered or send by registered post of his/her objection supported by an affidavit	Note: a) The res			Audit Commi	ttee and app	proved by the	described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section	office from "The NCT of Dolhi" to "The State of
stating the nature of his/har interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address	mey may send men Objection with	stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the REGIONAL DIRECTOR.	Board of Director	of the Compan	y at their respectiv	ve meeting he	ld on 10th Fe	bruary, 2020.	13(4) of the said Act read with rule 9 of the said rules on this 6th day of February of the year 2020.	Haryana". Any person whose interest is likely to be affected
Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New	reasons thereof, to the Secretary (Political Party) Election	NORTHERN REGION, at B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal, Antyodaya Bhawan, CGO	b)The above is a filed with the St						The borrowers/ guarantors in particular and the public in general are hereby	by the proposed change of the registered office
Delh-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant.	A	Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003,	Disclosure Requi	ements) Regu	lations, 2015. Th	e full format	of the Quart	erly Financial	cautioned not to deal with the assets and any dealings with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank for an amount of Rs. 1,03,33,322,56	of the Company may deliver either on the MCA- 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor
company at its registered office at the address mentioned below:	Sadan, Ashoka Road, New Delhi-	within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the Petitioner	Results are availation the Company	and only a second second	and the second second second second		he same is a	also available	(Rupees One Crore Three Lacs Thirty Three Thousand Three Hundred Twenty Two	annutate from to be note to be defined as soud
Registered Office: House No. 176/2, Sector-41A, Chandigart-160036 Encland on behalf of Broad	110001 within 30 days of the	Company at its registered office. For AILOGIX SOFTWARE SOLUTIONS	c)#-Exceptional	and/or Extraord	linary items adjust	led in the Stat		fit and Loss in	& paisa Fifty Six only) as on 31 10.2019 plus further interest & charges thereon at	by an affidavit stating the nature of his/her interest
Jay Thakurji Multimetals Private Limited	publication of this notice.	INDIA PRIVATE LIMITED	accordance with i	nd-AS Rules / A	S Rules, whicheve	er is applicabl		of the Board	applicable agreed rate DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY	and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor,
Date 12.2.2020 Pawan Kumar, Director Place Chandigarn DIN: 08164019		Place: Delhi Swapnil Sharma	_		For Ra	ghav Produc	tivity Enhan	cers Limited	All that Part & Parcel of the Property Entire Second Floor without roof rights	Paryavaran Bhawan, CGO Complex. New Delhi - 110003, within Fourteen days of the date of
PRete ROTO PU	MASITO	Date: 11.02.2020 Director DIN: 08112351					R	ajesh Kabra	(having covered area measuring 345.10 Sq Yards) on Property No 50 in Block F-14, Model Town II, Delhi-110009 owned by Sh. Jatin Madani Alias Jitender	publication of this notice with a copy to the
ROTO PU		R/O: 312, in Front of RK Bakrey, Bajrang Nagar, Indore, Madhya Pradesh 452011	Place : Jaipur Date : 11th Fe	2020			(Managi	ing Director)	Madnani S/o Sh. Naryan Daas alias Narayan Dass Madnani and Smt. Divya Madani	applicant Company at its registered office at the address mentioned below:
Regd. Off.: Roto House, Nolda Special Tel.:+91 120 2567902-05		nagar, muore, maunya Praueen aszerri	Date . This re	oruary, 2020			Di	N : 00935200	Alias Divya Madnani W/o Sh. Jatin Madani alias Jitender Madnani. Property is bounded by:	First Floor, Fiorist, Omaxe Square, Jasola District
Email: Investors@rotopumps.com PUBLIC	Website: www.rotopumps.com	UNIVERSAL	OFFICE	AUTON	ATION	LIMIT	TED	11	East Road	Centre New Delhi - 110025 For and on behalf of the Applicant
NOTICE is hereby given that the share certificate p	and the second se		CIN : L3430	DL1991PLC044	365				West PlotNo. F-14/51 North Road	KOSEL INDUSTRIES (INDIA) LIMITED
given below, is stated to have been lost/misplac has applied for issue of duplicate share certificat		Regd. 0 Wabsite: www.uniof	H. : 806,Siddharth,9 ficeautomation.com		A de derre e directe i de la				South Road	HARI SHANKER GUPTA
NAME OF FOLIO NO CERTIFICA	TE NO. OF	Extract of standalone Un-Audit			1. The second second			Rs Aacs	Date: 12/02/2020 (Authorized Officer) Place: Delhi Punjab National Bank, Branch Kalkaji	Place: New Dethi (W.T. Director) Date: 12.02.2020 DIN: 01320494
SHAREHOLDER POLIO NO. NO Pravinchandra N Desai 0002708 50299	aronca		Curr	nt precedin	g Correspondin	g Nine	Nine	Year		
Public is hereby cautioned against purchasing			quar	er quarter		months	months	ended 31"		
certificate. Any person(s) who has/have any cla such claims with the Company at the address me		SI Particulars	end 31,12.		9 31.12.2018		ending 31.12.2018	March, 2019	The Jamr	nu and Kashmir Bank
of this notice, after which no claims shall be enter	ertained and the Company will proceed to issue		Un-au			Un-audited			The Procur	ement Department,
duplicate share certificate. Any person dealing solely at his/herrisk as to costs and consequence		1 Other Income	0.	0.0	00.00	0.00	0.00	0.00	J&K Bank Corporate	e Headquarters,
it in anyway.	For ROTO PUMPS LTD.	2 Net Profit / (Loss) for the period (before		13.67	(13.08)	11.50	(21.12)	227.93	Serving To Empower M.A.Road	Srinagar 190 001, J&K
Place : Noida	Sd/- ASHWANI K. VERMA	Exceptional and/or Extraordinary items							Notico for Inviting	Tondor
Dated : 11.02.2020	COMPANY SECRETARY	3 Net Profit / (Loss) for the period before		40 13.67	253.74	11.50	245.69	228.08	Notice for Inviting	renuer
1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y	TERPRISES LIMITED	4 Net Profit / (Loss) for the period after ta	104 TO 200	13.67	253.74	11.50	245.69	166.84	On-line Request for Proposal (RFP) for Selection of bidd	er for Annual Maintenance of
	1933PLC009509 , 15, Barakhamba Road New Delhi	(after Exceptional and/or Extraordinary	Your Arrest Contract of the State	10.01	600.14	11,00	240.02	100,04	Network Equipment Installed at Various Branches	
	om Phone No 011-23316409	5 Total Comprehensive Income for the p	and the second se	13 6	253.74	11.50	245.69	166,84	Tender Notice along with Complete tender docum	
and the second	sirshadilal.com	[Comprising Profit / (Loss) for the period			1.1.1.1.1		1.000		requirements can be downloaded from the Bank's e-	
	POSTAL BALLOT of the Companies Act, 2013)	and Other Comprehensive Income (aft	er (ax)]			-			portal https://eauction.auctiontiger.net from Feb	
Members of the Company are hereby info	rmed that the Company has completed the	6 Equity Share Capital	1465.	1465.27	1465.27	1465.27	1465.27	1465.27	onwards. Notice of the Tender and Tender Document of	
dispatch of the Postal Ballot Notice dated 1	1.02.2020 along with explanatory statement	7 Reserves (Excluding Revaluation reserves)		÷					Bank's Website www.jkbank.com from February 12 202	c0 10.00 Hrs.
	ant to Section 110 of the Companies Act, 2013 gement and Administration) Rules, 2014), as	shown in Balance Sheet of previous ye	lar						RFP Ref. No. JKB/F-967/AP170/2020-021	
amended; for seeking approval of the me	embers of the company by way of Special	8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operal	(ane)						Dated 10-02-2020	
	ing Unsecured Loan from Directors of the oters of the oters of the Company on preferential basis	1. Basic:	(J).	0.00	1.73	0.08	1.68	1.14		
through postal Ballot which also includes	voting by Electronic means ie. (Remote e-	2. Diluted:		0.05	1	0.08	1.68	1.14	बैंक ऑफ़ इंडिया BO 🛧 Branch : Je Bank of India BO 🛧 Ag	
voting).		Note:		- 1 ma	1.1.9		111.0	2454	Bank of India	E See Rule 8(1)

The Members are being provided with the facility to cast their votes on Resolution set forth In the Postal Ballot Notice using electronic voting system (Remote e-voting). A person whose name appears on the Register of Members /List of Beneficial Owners as on the cu off date ie, Monday, 10th February, 2020 only shall be entitled to vote on the Resolution proposed to be passed by Postal Ballot/ Remote e-voting. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.

The Company has engaged the Services of National Securities Depository Limiter (NSDL) for providing Remote E-voting Facility to all the Shareholders of the Company. Shareholders are requested to note that voting both through Postal Ballot and electronic

mode shall commence on Wednesday, February 12, 2020 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, March 12, 2020 at 5.00 p.m. Ms. Kavita Vedwal, Proprietor of M/s Kavita Vedwal & Co. (Membership No. ACS 29911;

C.P. No. 21347), a Company Secretary in Whole Time Practice has been appointed as scrutinizer for conducting the Postal Ballot /e-voting process in a fair and transparent manner

Duly completed postal ballot forms should reach the scrutinizer not later than, 5.00 PM on Friday, March 13, 2020. Postal Ballot form received afterwards will be treated strictly as if the reply from the Shareholders has not been received

Members who have not received the Postal Ballot forms may download the same from the website of the Company ie, www.sirshadilal.com or From the website of NSDL "https://www.evoting.nsdl.com/" or can write to the Company at CS@sirshadilal.com o the Company registered office situated at 4-A, Hansalaya 15 Barakhamba Road, New Delhi-110001 and obtain duplicate thereof.

The result of the Postal Ballot will be declared at 4:00 P.M. on Friday 13:03:2020 at the Registered office of the Company at 4-A, Hansalaya 15 Barakhamba Road, New Delhi-110001 and will be displayed on the Company's website www.sirshadilal.com

For any grievances/queries relating to voting by Postal Ballot, shareholders are requested to Contact the Company Secretary, Sir ShadiLal Enterprises Limited at 4-A, Hansalaya 15 Barakhamba Road, New Delhi- 110001 or write at email CS@sirshadilal.com or contact through telephone 011-23310414, 23316409

In case of any queries or grievances relating to E-voting, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL by email at evoting@nsdl.co.inor call on : 1800 222 990.

For Sir Shadi Lal Enterprises Limited

	50-
Sector Sect	Ajay Kumar Jain
Date: 11.02.2020	Company Secretary
Place: New Delhi	FCS-5826

Re	gd. Office:- 981, Agarwal Millenium T Wazirpur, Opp TV Tov CIN: L67120	ver, Pitampura, Dell DL1984PLC018800 weraleasingfinance	bhash Place,E hi-110034 I .com	
	Extract of Standalone Una Quarter and Nine month		ember, 2019	
S. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)	Quarter ended 31.12.2018 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	- ×	18.03	3.14

Note:

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly financial results are available on the stock exchanges website at a link (bseindia.com/#corporates ) and on the Company's website at www.uniofficeautomation.com.

> For Universal Office Automation Limited Sd

> > Sunil Kumar Shrivastava

Place : Noida Date : 10.02.2020

**Managing Director** NDIAN OVERSEAS BANK Punjabi Bagh Branch (0687), 1/52, North Avenue Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110026 Demand notice to Borrowers / Mortgagors/Guarantors Under Sub-section(2)

Place : Punjabi Bagh, New Delhi of section 13 of the SARFAESI Act, 2002 Date: 05.02.2020

SI. No	Borrower	SI. No	Guarantors
	M/s Malhotra Enterprises Proprietor Shobha Malhotra N1-52 Sarai Alawardi, New Palam Vihar, Phase- I, Gurgaon, Haryana-122017		NA

Dear Sir/Madan

Nature of security

3

Re.: Your Credit facilities with Indian Overseas Bank, Punjabi Bagh Branch

You, the above named borrowers of our bank have availed the following credit facilities from our Punjabi Bagh Branch.

The details of credit facilities with outstanding dues are as under:

SI. No	Nature of facility	Limit	Rates of interest (including overdue interest) & rests	Total dues as on 31.01.2020
1.	Cash Credit Ioan account no. 068733000000036	Rs. 50,00,000/- (Rs. Fifty Lakhs Only)	12.15.%	Rs. 49,07,587/- (Forty Nine Lakh Seven Thousand Five Hundred and Eighty Seven Only) + Undebited Interest+ Penal interest (if any)
ĺ			Total	Rs. 49.07,587/- (Forty Nine Lakh Seven Thousand Five Hundred and Eighty Seven Only) + Undebited interest+ Panal interest (if any)

The above named borrower referred under SI. No 1 have executed deed of mortgage dated 01.03.2019 and thereby guaranteed payment on demand of all moneys and discharge all obligations and liabilities then or at any time thereafter owing or incurred to Indian Overseas Bank by the borrowers for the aggregate credit limits together with agreed interest, charges etc.

The credit facilities were secured by the assets mentioned below by way of mortgage/hypothecation/hire purchase/lease (as applicable) standing in the name of the borrower Nos. 1 the borrower / mortgagor

You have acknowledged from time to time the liabilities under the below transactions through various documents executed by you.

The details of securities in favour of the Bank for the aforesaid credit facilities are:

## Particulars of securities


1.Equitable Mortgage Property situated at plot of land Comprised in Knewat / Khata No. 51/52; Rect. No. 9, In Killa No.13//1(8-2) ,having Plot No.N1-52 in revenue estate of Village Sarai Alawardi. New Palam Vihar, Phase-I, Gurgaon, Haryana-122017.

Consequent upon defaults committed by the above named borrowers in payment of the principal debt . interest as per agreed terms, your loan account has been classified as Non-Performing Asset on 31.01.2020 (date of classification as NPA) as per Reserve Bank of India guidelines and directives. Despite our reminders for regularization of your account, you have not repaid the overdue loans including interest thereon.

Since you the above named borrowers referred under SI. Nos. 1 have failed to meet the liabilities in respect of the credit facilities duly secured by various securities mentioned above and upon classification of your account as a Non-Performing Asset, we hereby recall our advances to SI Nos. 1 of you and give you notice under sub-section (2) of section 13 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and call upon you to pay in full and discharge your liabilities to the bank aggregating to Rs. 49,07,587/- (Forty Nine Lakh Seven Thousand Five Hundred and Eighty Seven Only) + Undebited interest + Penal interest (if any), as detailed in para 1 above, with further interest as mentioned above from the date mentioned above, within 60 days from the date of receipt of this notice. We further give notice to M/s Malhotra Enterprises (Borrower) that failing payment of the above amount with interest and charges etc till the date of payment, we shall be exercising all or any of the rights vested on us, under sub-section (4) of section 13 of the said Act.

Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 under 13(12) read with Rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, calling them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is given to the under noted Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken Possession of the properties described herein below in exercise of the power conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 on the dates mentioned hereunder. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Bank of India, for an amount and interest thereon mentioned against each account herein below. The borrower's attentions is invited to provisions of sub-section (8) for section 13 of Act., in respect of time available, to redeem the sucured assets.

Name of the Borrower	Description of Propertys Mortgaged / Owner of the properties	O/S as mentioned in the notice U/S 13(2) Date of Demand/ Possession Notice
Borrower Mr. Mukesh Kumar Sisodiya S/o Sh. Swaraj Singh Co. Borrower Mr. Sandeep Kumar Sisodiya S/o Sh. Mukesh Kumar Sisodiya Guarantor Mr. Sultan Singh S/o Sh. Pyare Lal	House No. 63A/17C, Defence Colony, Mauja Chawali, Agra Area 83.38 sq. meters standing in the name of Mr. Mukesh Kumar Sisodiya S/o Sh. Swaraj Singh, Bounded as : East - Rasta 12 Feet Wide, West- Property of Others, North- Property of Ramesh Nath Tiwari, South-Propery of Shankar Lal Gupta	₹ 11,19,935.59 * Intt. & other charges 06-11-2019 06-02-2020
Place : Agra Da	te: 10.02.2020 Authorised Of	ficer, Bank of India



Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with the proviso to Rule 8(5) & 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s that the below described property mortgaged i charged to the Secured Creditor, the Physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Secured Creditor, will be sold on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE IS and WITHOUT RECOURSE BASIS" E-Auction date 13.03.2020 for recovery of dues to the Secured Creditor from the below mentioned borrowers and guarantors. The reserve price and earnest money deposit will be as per detailed below:

Name and Address of Borrowers and Guarantors Amount due with date	Description of the Immovable Properties mortgaged and Name of Owner/Mortgager	Reserve price of Property Earnest Money Deposit (EMD) Date & Time of Inspection	Account No. to deposit EMD and IFS Code
Borrower:-Mis Sun Micro Pvt. Ltd. Director: Mrs. Kabir Bhatt Slo A.S. Shatt, Mrs. Jyoti Bhatt Wio Kabir Bhatt Add: 718/722, 8-89, Nehru Place, New Delhi Rs. 4,40,36,179.34 (Rupees four crore forty takh thirty six thousand one hundred seventy nine and paisa thirty four only.) as on 07.02,2020 with future interest and costs til date of payment.	Residential House: Plot No. 2678 Old Plot No. U-139 Sector-A, Area Measuring 444 Sq. Yda (First Floor), Khasra No. 61/4 & 5, in residential colony Known as "Green Fields", situated in the revenue estate of village Sarai Khawaja, Tehsil & Distt-Fandabad, Owned by Mr. Kabir Bhatt S/o Sh. A.S Bhatt Area 444 sq. yds	Rs. 89,00,000/- Rs. 8,90,000/- 11-03-2020 11:00 AM to 4:00 PM	Alc No. 62203020000017 Syndicate Bank. Balabhgarti Branch IFS Code SYNB0008220
Sixty Eight Lakh Seventy Five Thousand	Residential House: Plot no 2578 ,Old Plot NoU-139 Sector- A, Area Measuring 444 Sq. Yds. (Second Floor), Khasra No. 61/4 & 5, in residential colony Krown as "Green Fields", situated in the revenue estate of village Sarai Khawaja, Tehsil & Distt. Fandabad, Owned by Mrs. Kabir Bhatt S/o Sh.A.S.Bhatt Area 444 sq.yds	Rs. 89.00,000/- Rs. 8,90,000/- 11-03-2020 11-00 AM In: 4 D0 PM	Atc No. 6/2030/0000017 Syndicate Benk. Branch IFS Code SYNB0006/20
Borrower:-Mis Prerna Electrovision Prop. Sanjay Khattar, Sio Nevreel Fumer Khattar Add: SCF-49, Sector-3, Hoda Market, Faridabad Rs. 1,51,07,096.76/- (Rupees One Crore Fifty One Lakh Seven Thousand Eight Hundred Ninty Six & Sevently Six paise only) as on 07.02.2020 with future interest and costs til date of payment.	admeasuring area 220 sq II. Adjoining Geeta Mandir wali gali, NH 1, NIT Fanidabad, Diett- Fanidabad, Owned by Mr Sanjay kumar Khattar, S/o Sh. Navneet Kumar Khattar, Arma 320 sp P.	Re. 39.00,000- Re. 3,90,000- 11-03-2020 11:00 AM Io 4:00 PM	Alt: No. 82203020000011 Byridicate Bank, Baitabhgath Branch IF5 Coder SYNB0008220
Date and Time of E Auction Last date of submission of bid: Minimum Bid increment amount: E Auction Website address: For detailed terms and conditions of sa	etails regarding E Auction are mentio : On 13-03-2020 from 11: 12-03-2020 by 4:00 PM In Multiples of Rs. 20,00 https://syndicatebank. is, please refer to the link provided in Secure	00 AM to 1:00 PM 00/- auctiontiger.net of Creditor's website I.e. we	
Date: 12.02.2020 Place: Ballabhgar	Ti -	Authorised Office	er, Syndicate Bani

2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.29)	1.19	0.69
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.29)	1.19	0,69
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.29)	1.19	0.69
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	T P I	1.19	0.69
6	Equity Share Capital	400.00	400.00	400.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous Financial Year)	(47.77)	(47.77)	-48.64
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):			
	Basic:	(0.0032)	0.0030	0.0017
	Diluted:	(0.0032)	0.0030	0.0017

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended and nine months ended 31st December, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. The Company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") from 1st April 2017 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34 "Interim Financial Reporting", prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

For New Era Leasing and Finance Limited

Place: Delhi	Ras Bihar		
Date: 11/02/2020	(Managing Directo		
Financialexp.epapr.in	DIN:06804500		

- The above named borrower No. 1 have given undertaking for repayment / guarantee for the credit facilities 5. taken by the borrowers and have also given the properties herein mentioned to secure the above said credit facilities. Since the borrowers have committed defaults in repayment, the borrower/mortgagors/guarantors have become liable to pay to us in terms of the guarantee, the amounts due to the Bank as per the loan / credit facilities aggregating to Rs. 49,07,587/- (Forty Nine Lakh Seven Thousand Five Hundred and Eighty Seven Only) + Undebited interest + Penal interest (if any), and we hereby invoke the guarantee against M/s Malhotra Enterprises and call upon you to pay the said amount within sixty days from the date of receipt of this notice. Please be advised that the guarantors' liability is co-extensive with the liability of the borrowers.
- 6. We further give notice to Ws Malhotra Enterprises that failing payment of the above amount with interest and charges etc till the date of payment, we shall be exercising all or any of the rights vested on us, under subsection (4) of section 13 of the said Act.
- Please note that in law the borrowers and guarantors are jointly and severally liable to repay the dues with 7. further interest and charges etc.
- Please note that interest will continue to accrue at the rates and rests as agreed for each credit facility until full 8. repayment.
- 9. Your attention is also invited to sub-section (13) of section 13 of the said Act in terms of which you are restrained from transferring/alienating/shifting any of the secured assets referred to above by way of sale, lease or otherwise, without obtaining our prior written consent. Please also note that non-compliance / contravention of the provisions contained in the said Act or Rules made thereunder, is an offence which is punishable with imprisonment and/or fine as provided under section 29 of the Act.
- The Borrower referred under SI. Nos. 1 have execute deed of hypothecation to secure the loans and as such we advise you to prevail upon the borrowers to repay the dues as per our demand since we have the right to separately recall the advance from you, initiate action against you simultaneously in accordance with law, for recovery of our dues based on your personal guarantee.
- 11. We also put all of you on notice that if the account is not regularized/ repaid within the stipulated time and in case of the Bank classifying you as a willful defaulter as per RBI Guidelines, the Bank reserves its rights to publish your photograph in newspaper(s) with your name, address, details of default, dues etc., in accordance with RBI Guidelines besides initiating all recourses available to the Bank for recovery.
- We also advise you that this demand notice is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which we have for recovery of the above said dues as well as our right to make further demands in respect of sums due and payable by you.
- 13. Further, attention is invited to provisions of Sub-section(8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Authorized Officer. Indian Overseas Bank